



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10—मार्च 16, 2007 (फाल्गुन 19, 1928)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10—MARCH 16, 2007 (PHALGUNA 19, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 11 जनवरी 2007

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए 19014/18/2006-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आ. सं. 05/08/2006 -सी.एस.-I (डेस्क)(पीपीटी) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री सुधाकर राज सी. (जन्मतिथि 02.03.1960)(सी एस एल सं. 5637) को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 22 दिसम्बर, 2006 (पूर्व) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(I) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

सं. ए. 19014/21/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आ. सं. 05/08/2006 -सी.एस.-I (डेस्क)(पीपीटी) के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्रीमती मंजुला सक्सेना (जन्मतिथि 15.05.1964)(सी एस एल सं. 5636) को रु.10,000-325-15,200 के वेतनमान में 26 दिसम्बर, 2006 (पूर्व) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

- (I) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।
- (II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 19 फरवरी 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/505/3/94/94-पर्स-1--श्री दयाराम सिंह यादव ने अधिवर्षिता पर 31.01.2007 अपराह्न से अपर पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2007/506/3/16/2004-पर्स-1--श्री देबाल ज्योति नाग ने अधिवर्षिता पर 31 जनवरी, 2007 अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 26 फरवरी 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/0042/3/40/92--राष्ट्रपति ने श्री एस.आर. बट्ट, लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो को 09.02.2007 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, के.अ.ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2007/0043/3/24/2000--श्री जुगल कुमार ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2007 अपराह्न से कार्यालय अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. 2/18/07-प्रशासन/49705--केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री पारितोष सरकार को अनुभाग अधिकारी के पद पर

वेतनमान रु. 6500-200-10500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 14.02.2007 से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप-सचिव
कृते केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/2/07-प्रशासन/49706--केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री एम.ए. खान को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 14.02.2007 से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप-सचिव
कृते केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 फरवरी 2007

सं. 16/3/2000-प्रशा.(एफ.एस.)--राष्ट्रपति, श्री विनोद कुमार, सहायक सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, कोलकाता में पदोन्नति पर दिनांक 17.01.2007 (अपराह्न) से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में उप सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

डा. एम.एस.राव
निदेशक (एफ.एस.)

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2007

संख्या ओ-दो-6381/2007-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री बी० एम्० के० शर्मा, सहायक कमान्डेन्ट (आई० आर० एल्० ए-6381), 66वीं बटालियन, के०रि०पु०बल, ने दिनांक 30.11.2006 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार, इन्हें इसी तारीख अर्थात् दिनांक 30.11.2006 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

सं. ओ-दो-3722/07-सी० आर० सी०(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर

दिनांक 22.1.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 185 बटालियन, केरिपुबल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

दिनांक 14 फरवरी 2007

सं. ओ-दो-3723/07-सी० आर० सी० (चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनीश राय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 5.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 137 बटालियन, केरिपुबल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

दिनांक 19 फरवरी 2007

सं. ए.छ:-1/2007-कार्मिक-I (स्क्राम्प)--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में सहायक कमांडेण्ट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
सर्वश्री			
1.	054832	पवन देव गौड	27/12/2006 अपराह्न
2.	049396	प्रभात कुमार सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
3.	116225	भरत भूषण सिंह	26/12/2006 पूर्वाह्न
4.	040688	संजय कुमार बामोला	27/12/2006 पूर्वाह्न
5.	041589	राजेश शर्मा	22/01/2007 अपराह्न
6.	027451	ब्रजेश कुमार पाण्डे	21/01/2006 पूर्वाह्न
7.	047847	विपुल कुमार मिश्रा	27/12/2006 अपराह्न
8.	030205	सन्तोष सिंह चौहान	30/12/2006 पूर्वाह्न
9.	034054	मनील नवादिया	27/12/2006 पूर्वाह्न
10.	083105	सन्तोष कुमार	27/12/2006 अपराह्न
11.	098260	पंकज कुमार	27/12/2006 अपराह्न
12.	013383	परमानन्द	27/12/2006 अपराह्न
13.	073190	धर्मेन्द्र सिंह यादव	27/12/2006 अपराह्न
14.	079100	युवराज कुमार	27/12/2006 अपराह्न
15.	011812	निर्मल गोपे	27/12/2006 पूर्वाह्न

क्र.सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
सर्वश्री			
16.	037914	कुलदीप कुमार	26/12/2006 अपराह्न
17.	010399	कामेश्वर साहू	31/12/2006 अपराह्न
18.	041248	कुमार ओम प्रकाश सिंह	26/12/2006 पूर्वाह्न
19.	000953	मोहम्मद राजी	26/12/2006 पूर्वाह्न
20.	080496	हेमन्त कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
21.	008916	लेगमिनथांग किपजेन	30/12/2006 अपराह्न
22.	096491	यशवन्त सिंह राजपूत	27/12/2006 अपराह्न
23.	073223	पंकज कुमार मिश्रा	26/12/2006 पूर्वाह्न
24.	047368	योगेन्द्र आनन्द राव ठकोले	27/12/2006 पूर्वाह्न
25.	103366	नवीन कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न
26.	047086	कौशल साधन गिरी	28/12/2006 अपराह्न
27.	061917	जयराम प्रसाद	27/12/2006 पूर्वाह्न
28.	104298	मनीष पाण्डे	27/12/2006 पूर्वाह्न
29.	103321	अमित कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
30.	054850	एन्मनोरंजन सिंह	26/12/2006 अपराह्न
31.	014533	अनुराग तिवारी	27/12/2006 पूर्वाह्न
32.	109604	शंकर कुमार	26/12/2006 अपराह्न
33.	028411	अविज्ञान कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
34.	096930	शिकु शरन सिंह	26/12/2006 पूर्वाह्न
35.	016181	विश्वास कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न
36.	060795	प्रेम कान्त चौबे	27/12/2006 अपराह्न
37.	001253	विनय कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न
38.	025764	देवेन्द्र सक्सेना	28/12/2006 पूर्वाह्न
39.	002035	नेयाज अहमद	26/12/2006 अपराह्न
40.	000897	विवेक कुमार	26/12/2006 अपराह्न
41.	067171	पवित्रा चक्रवर्ती	26/12/2006 पूर्वाह्न
42.	054438	राजीव रंजन कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न
43.	013856	पुष्कर भारद्वाज	29/12/2006 पूर्वाह्न
44.	010505	महेन्द्र हेगडे	27/12/2006 अपराह्न
45.	090229	रणजीत कुमार	27/12/2006 अपराह्न
46.	001465	रजनीश कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
47.	048013	बीरान्द्र कुमार	27/12/2006 अपराह्न
48.	020019	मृत्युंजय कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न

क्र.सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख	क्र.सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
49.	017347	अर्जत कुमार	28/12/2006 अपराह्न	82.	015891	रत्नेश्वर कुमार	27/12/2006 अपराह्न
50.	000461	अलोक कुमार	31/12/2006 पूर्वाह्न	83.	054604	विवेक कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न
51.	073412	अलोक कुमार अन्तल	27/12/2006 अपराह्न	84.	018913	अमित प्रकाश	26/12/2006 अपराह्न
52.	016817	राकेश कुमार मिश्रा	27/12/2006 अपराह्न	85.	011100	बिनय कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न
53.	037821	कुमार अंशु माली	26/12/2006 पूर्वाह्न	86.	051754	माणे राम	04/01/2007 अपराह्न
54.	090978	विक्रान्त शर्मा	27/12/2006 पूर्वाह्न	87.	104734	प्रमोद कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
55.	074744	हरीशंकर मौर्या	02/01/2007 अपराह्न	88.	105759	अनिल कुमार राम	27/12/2006 पूर्वाह्न
56.	019915	राजद्वीप गुप्ता	26/12/2006 अपराह्न	89.	009194	विजय कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न
57.	072895	अनुपम	27/12/2006 पूर्वाह्न	90.	050966	मुकेश कुमार सेवरिया	26/12/2006 पूर्वाह्न
58.	031816	संजीव कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न	91.	096040	बजरंग लाल मीना	26/12/2006 अपराह्न
59.	050852	श्याम लाल	27/12/2006 पूर्वाह्न	92.	076868	प्रकाश चन्द्र बडोलिया	26/12/2006 अपराह्न
60.	011271	अखिलेश कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न	93.	097555	प्रेम कुमार रवि	27/12/2006 अपराह्न
61.	030084	पुरषोत्तम कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	94.	073758	पवन कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
62.	007255	सचिन कुमार गुप्ता	27/12/2006 पूर्वाह्न	95.	112375	गौरव	27/12/2006 पूर्वाह्न
63.	055458	चितेश कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न	96.	025132	पारसमनी चन्दर	26/12/2006 अपराह्न
64.	073503	राजीव रंजन	27/12/2006 पूर्वाह्न	97.	102928	प्रकाश चन्द्र बादल	27/12/2006 अपराह्न
65.	057856	यामिनी कुंवर भाटी	26/12/2006 अपराह्न	98.	009794	अमरजीत सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
66.	002319	विपिन कुमार धारीवाल	27/12/2006 अपराह्न	99.	109444	राजन रोशन तीर्क	25/12/2006 अपराह्न
67.	105616	अलख शुक्ला	27/12/2006 पूर्वाह्न	100.	022656	सुनील कुमार लकडा	25/12/2006 अपराह्न
68.	020822	दिनेश कुमार सिंह देव	26/12/2006 पूर्वाह्न	101.	084936	राज कुमार राज	27/12/2006 अपराह्न
69.	081041	महेश कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न	102.	074607	हरी सिंह	26/12/2006 अपराह्न
70.	051422	वाई राकेश सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न	103.	082718	अजय कुमार साह	26/12/2006 पूर्वाह्न
71.	014123	सुनील कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	104.	013884	कमलेश कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न
72.	048238	शरद कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	105.	067036	सौरव राजपूत	27/12/2006 पूर्वाह्न
73.	104899	आनन्द प्रसाद गोतवाल	27/12/2006 पूर्वाह्न	106.	077416	दीपक तिवारी	29/12/2006 अपराह्न
74.	104957	दिनेश	27/12/2006 अपराह्न	107.	048162	हरीश चन्द्रा	26/12/2006 अपराह्न
75.	067372	गोपाल सिंह बुनकर	27/12/2006 अपराह्न	108.	060858	सिन्डे नितिन शिवदास	27/12/2006 पूर्वाह्न
76.	067368	महारबम प्राबो सिंह	26/12/2006 अपराह्न	109.	026652	विक्रान्त वर्मा	26/12/2006 अपराह्न
77.	106060	हिमांशु कुमार प्रसाद	27/12/2006 पूर्वाह्न	110.	045685	अभिषेक शर्मा	27/12/2006 पूर्वाह्न
78.	022791	करमवीर सिंह यादव	27/12/2006 अपराह्न	111.	097074	भरत भूषण प्रताप सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
79.	020888	पप्पु कुमार रजक	27/12/2006 अपराह्न	112.	072941	विक्रान्त सिंह	27/12/2006 अपराह्न
80.	080828	अनन्त कुमार टोपो	26/12/2006 पूर्वाह्न	113.	029005	विजय शंकर सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
81.	012200	डी. सिमटे	27/12/2006 अपराह्न	114.	021947	दीपक कुमार	27/12/2006 अपराह्न

क्र०सं०	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख	क्र०सं०	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
		सर्वश्री				सर्वश्री	
115.	030291	कुनाल किशोर	27/12/2006 अपराह्न	148.	057076	निशान्त वैष्णव	26/12/2006 पूर्वाह्न
116.	093973	अनिल कुमार गुर्जर	27/12/2006 अपराह्न	149.	036058	सुरेश ओरन	27/12/2006 अपराह्न
117.	012357	प्रीतम सिंह	27/12/2006 अपराह्न	150.	054328	रविन्द्र सिंह तोमर	27/12/2006 पूर्वाह्न
118.	049364	सुधांशु कुमार	26/12/2006 अपराह्न	151.	087206	शिव चरण मीना	27/12/2006 पूर्वाह्न
119.	047866	सतवन्त सिंह यादव	25/12/2006 अपराह्न	152.	071860	सर्वेश कुमार सिन्हा	27/12/2006 पूर्वाह्न
120.	079726	सत्यनारायण तनवर	25/12/2006 अपराह्न	153.	092868	पंचम लाल	26/12/2006 अपराह्न
121.	072657	विशाल वैभव	27/12/2006 अपराह्न	154.	009285	उमेश कुमार साह	26/12/2006 अपराह्न
122.	001897	मनीष कुमार	26/12/2006 अपराह्न	155.	051615	जितेन्द्र कुमार	28/12/2006 पूर्वाह्न
123.	056607	विवेक सिंह	21/01/2007 अपराह्न	156.	042492	जिया उल हक	26/12/2006 पूर्वाह्न
124.	003642	संजय फाटक	15/01/2007 अपराह्न	157.	087694	दीपक कुमार तिवारी	03/01/2007 अपराह्न
125.	081621	रोहित कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	158.	100261	विनोद सिन्हा	28/12/2006 अपराह्न
126.	097408	विकास कुमार राय	27/12/2006 पूर्वाह्न	159.	022443	धर्मदास चौरसिया	26/12/2006 पूर्वाह्न
127.	075678	राकेश कुमार चौरसिया	26/12/2006 पूर्वाह्न	160.	090996	सर्वर हुसैन	26/12/2006 पूर्वाह्न
128.	028049	कुमार नीरज	26/12/2006 पूर्वाह्न	161.	003621	अमी चन्द यादव	26/12/2006 अपराह्न
129.	049391	ठाकुर दीवाकर सिंह	27/12/2006 अपराह्न	162.	015701	विकास कुमार सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
130.	064781	मनीष कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	163.	014100	सुखेन्द्र सिंह सोमवंशी	27/12/2006 अपराह्न
131.	039971	जगजीत सिंह	27/12/2006 अपराह्न	164.	098424	स्वतंत्र कुमार शुक्ला	27/12/2006 पूर्वाह्न
132.	105733	विनोद कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	165.	099849	सिद्धार्थ सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
133.	036647	नीर सिंह मीना	29/12/2006 अपराह्न	166.	017537	अश्विनी कुमार मिश्रा	27/12/2006 अपराह्न
134.	101942	राजेश कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न	167.	002434	रविन्द्रा सिंह	27/12/2006 अपराह्न
135.	061777	संदीप कुमार	26/12/2006 अपराह्न	168.	059448	अमित शर्मा	27/12/2006 पूर्वाह्न
136.	027422	पवन कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न	169.	017242	मनीष रमन	28/12/2006 अपराह्न
137.	073992	राकेश कुमार	26/12/2006 पूर्वाह्न	170.	113418	जितेन्द्र कुमार	26/12/2006 अपराह्न
138.	023989	मुकेश कुमार चौधरी	26/12/2006 अपराह्न	171.	070872	अनिल कुमार यादव	26/12/2006 अपराह्न
139.	020125	रमेश सिंह	26/12/2006 पूर्वाह्न	172.	093570	विवेक सारस्वत	22/01/2007 अपराह्न
140.	047519	निंगरीगम लिजन	27/12/2006 अपराह्न	173.	052939	करण कुमार ओझा	22/01/2007 पूर्वाह्न
141.	102916	पवन कुमार भोजक	26/12/2006 अपराह्न	174.	005600	राजेन्द्र कुमावत	15/01/2007 अपराह्न
142.	096054	राजन सिंह	27/12/2006 अपराह्न	175.	081076	कुमार राकेश रंजन	24/01/2007 अपराह्न
143.	059226	राजु कुमार सिंह	26/12/2006 अपराह्न	176.	012129	रमेश कुमार स्वामी	15/01/2007 अपराह्न
144.	095798	रत्नेश कुमार सिंह	27/12/2006 अपराह्न	177.	073066	परमेन्द्र नारायण	12/01/2007 अपराह्न
145.	103157	प्रवीण त्रिपाठी	27/12/2006 पूर्वाह्न	178.	072437	विनय कुमार	22/01/2007 अपराह्न
146.	018095	विनोद सावन्त	27/12/2006 अपराह्न	179.	080460	सपन सुमन	18/01/2007 अपराह्न
147.	095833	अमृतेश कुमार	27/12/2006 अपराह्न	180.	102729	अविनाश यादव	12/01/2007 अपराह्न

क्र.सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
181.	100189	संजय कुमार	22/01/2007 अपराह्न
182.	048496	जफरुल इस्लाम	25/01/2007 अपराह्न
183.	096318	राम केवल	27/12/2006 अपराह्न
184.	014715	शैलेश कुमार	27/12/2006 पूर्वाह्न
185.	060811	जिनेश जोईस	27/12/2006 पूर्वाह्न
186.	095889	राजेन्द्र कुमार केरबा पाटील	26/12/2006 पूर्वाह्न
187.	062336	चवान सूधीर अर्जुन	27/12/2006 अपराह्न
188.	041534	वी. कमलेश	27/12/2006 पूर्वाह्न
189.	040758	पाल सिंह	27/12/2006 पूर्वाह्न
190.	090500	रोहित कचुआ	27/12/2006 पूर्वाह्न

2. इन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी कादरपुर (गुडगांव) में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दी है तथा इनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 21 फरवरी 2007

सं. ओ-दो-3727/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर गोपालजी गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 9-2-07 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल) में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3726/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर हेज़ गुन्ते को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 9.2.07 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 170 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3725/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर राकेश कुमार (इरला-7016) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर

दिनांक 7.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 145 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3724/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर कदम प्रकाश मधुकर (इरला-7015) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 5.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 45 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

सं. डी.एक-008/2004-कार्मिक-1--श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप कमाण्डेन्ट (इरला-4015) 152 बटालियन, के.रि.पु. बल, का मध्य प्रदेश शासन पुलिस में उप कमाण्डेन्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्षों के लिए चयन हो जाने के परिणाम स्वरूप दिनांक 03-05-2006 पूर्वाह्न से इनकी सेवाएं मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस को सौंपी जाती हैं।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. ओ-दो-3728/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 7.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 168 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

नई दिल्ली-03, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. ए-12012/4/अ.स.नि./2006-प्रशा. II--इस निदेशालय के श्री ए. के. सुत्राधर, वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी को अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर 7500--12000/- रुपये के वेतनमान में 27 दिसम्बर, 2006 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका
निदेशक पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 19 फरवरी 2007

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक-1/21--राष्ट्रपति, के.ओ.सुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेंटों को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप कमांडेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया	उप कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
	सर्वश्री		
1.	वी. के. अवस्थी	पीटीपीएस, पानीपत	21.12.2006
2.	एस. एस. चौधरी	निसा, हैदराबाद	02.01.2007

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-38015(4)/वी एस/2007/पर्स-1/20--राष्ट्रपति, के.ओ.सुब इकाई, बी एस पी भिलाई के उप कमांडेंट, डा. वी. सुन्दर द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा में समूह-1 में नियुक्त होने पर दिए गये तकनीकी त्याग पत्र दिनांक 06 फरवरी 2007 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 21 फरवरी 2007

सं. ई-16015/एनडीएमए/06/कार्मिक-2/467--राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनडीएमए) में श्री के. एम. सिंह, सदस्य, एनडीएमए के सीनियर पीपीएस के पद पर तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री आर. के. सिन्हा, स.म.नि., के.ओ.सुब ने दिनांक 05.04.2006 (अपराह्न) से सहायक महानिरीक्षक/निर्माण, के.ओ.सुब मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया है तथा दिनांक 05.04.2006 (अपराह्न) से इन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में सदस्य, एनडीएमए के सीनियर पीपीएस का पदभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 17 फरवरी 2007

सं. बीएनपी/सी/44/98-I--श्री के. एल. गोर्ग्रा, को अधिसूचना दिनांक 27.10.2006 के द्वारा दी गई पदोन्नति की अवधि उन्हीं शर्तों पर दिनांक 07.02.2007 से 05.05.2007 तक बढ़ाई जाती है।

डी. व्ही. गोंडनाले
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

पटना-800001, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. स्था.ले.प.प्रशा-I-व.ले.प.अ.(प्रो.)/32/79/06-07--प्रधान महालेखाकार (ले. प.) बिहार, पटना ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के श्री महेश चौधरी, लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है।

अमिताभ प्रसाद
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. स्था.ले.प.प्रशा-I-ले.प.अ.(प्रो.)/43/80/06-07--प्रधान महालेखाकार (ले. प.) बिहार, पटना ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के श्री संजीव कुमार वर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7500-250-12000/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है।

अमिताभ प्रसाद
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. स्था.ले.प.प्रशा-I-स.ले.प.अ.(प्रो.)/33/81/06-07--प्रधान महालेखाकार (ले. प.) बिहार, पटना ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 11.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7450-225-11500/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है:-

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री राकेश कुमार-II
2.	श्री रंजन कुमार
3.	श्री अमरेन्द्र कुमार

अमिताभ प्रसाद
स्थानीय लेखा परीक्षक

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिमी बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-I/439--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प. बंगाल, के श्री ज्योतिर्मय भट्टाचार्या, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, ने दिनांक 31.01.2007 (अपराह्न) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बी. के. मुखर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. प्रशा. I/1366-II/2006-07/341--महालेखाकार (ले. एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने श्री शिवेन्द्र नाथ सान्याल, लेखा अधिकारी एवं श्री अलक कुमार चक्रवर्ती, लेखा अधिकारी को दिनांक 02.1.2007 (पूर्वाह्न) या कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, इनमें से जो भी बाद में हो, से 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में, वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर फंक्शनल ग्रेड में प्रोन्नति दी है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति होने पर श्री सान्याल एवं श्री चक्रवर्ती, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर एफ.आर. 22-I(क)(i) के अधीन वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं।

(प्राधिकार : महालेखाकार के दिनांक 07.12.06 का आदेश)

जे. आर. विश्वास
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 09 जनवरी 2007

सं. प्रशा. I/1255-IV/2006-07/371--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिमी बंगाल के दिनांक 09.01.2007 के आदेश के अंतर्गत इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी जो कि इस समय अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) के रूप में प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) कोलकाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को, उनके निम्नलिखित अवर के इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7450-225-11500/- रुपये के वेतनमान में, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है :-

प्रोफार्मा प्रोन्नति प्राप्त व्यक्ति का नाम	उनके ठीक बाद के अवर का नाम
श्री शैवाल सान्याल	श्री विश्वजीत पाल

इस मामले में "तत् निम्न नियम" के अधीन प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी पाई गई तथा यह घोषित किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर श्री सान्याल द्वारा धारण किए गए पद, सामान्य सर्विस लाइन के बाहर हैं।

प्रोन्नति होने पर उनके वेतन एफ.आर. 22-I(क)(i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

जे. आर. विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक, 07 फरवरी 2007

सं. प्रशा. I/1255-IV/2006-07/225--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिमी बंगाल के दिनांक, 22.09.2006 के आदेश के अंतर्गत इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी जो कि इस समय अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) के रूप में प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) कोलकाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को, उनके निम्नलिखित अवर के इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7450-225-11500/- रुपये के वेतनमान में, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है :-

प्रोफार्मा प्रोन्नति प्राप्त व्यक्ति का नाम	उनके ठीक बाद के अवर का नाम
श्री तपन कुमार मुन्ना	श्री प्रशांत कुमार पाल

इस मामले में "तत् निम्न नियम" के अधीन प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी पाई गई तथा यह घोषित किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर श्री आचार्य द्वारा धारण किए गए पद, सामान्य सर्विस लाइन से बाहर हैं।

प्रोन्नति होने पर उनके वेतन एफ.आर. 22-I(क)(i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

जे. आर. विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 09 फरवरी 2007

सं. प्रशा. I/1255-IV/2006-07/224--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिमी बंगाल के दिनांक 22.09.2006 के आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 22.09.2006 पूर्वाह्न या सहायक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, इनमें से जो भी बाद में हो, से 7450-225-11500/- रुपये के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति दी जाती है :-

(सर्वश्री)

1. नन्दलाल साधुखँ
2. प्रशान्त कुमार पाल
3. दिलीप कुमार सेनगुप्त
4. इन्द्रजीत सरकार
5. इम्मानुएल एक्का
6. पुलक कुमार साहा

प्रोन्नति होने पर उनका वेतन एफ.आर. 22-I(क)(i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए उन्हें प्रोन्नति के दिनांक से एक महीने के अंदर विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

जे. आर. विश्वास
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 21 फरवरी 2007

सं. प्रशा. गोप-4-स ले अ/1998--महालेखाकार (लेखा व हकदारी) ओड़िशा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (लेखा) को उनके सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक लेखा अधिकारी पद (ग्रुप-ख-राजपत्रित) 6450-225-11500/- रुपए के वेतनमान पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

श्री प्रसन्न कुमार बेहेरा

दिनांक 2.1.2007 (पूर्वाह्न)

2. सहायक लेखा अधिकारी वर्ग में की गई पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर आधारित है।

शरत चन्द्र साहू
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. का. स्था./ह व रो/ई IV पें./157--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती एस. सुकुमारी नायर	लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.01.2007 (अपराह्न) (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती साली मैथ्यू	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	08.01.2007 (पूर्वाह्न) (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)

पी. भास्करन
उप महालेखाकार (प्रशासन)
केरल

महालेखाकार का कार्यालय (ले व ह), कर्नाटक

बैंगलूर, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. ई एस I/ए 8/ए ओ/2006-07/239--प्रधान महालेखाकार (ले व ह) ने श्री आर. जी. प्रसाद, सहायक लेखा अधिकारी (युनिक आई डी संख्या : आई 209 0066) (कर्नाटक लोकसभा सचिवालय, विधान सौधा, बैंगलूर में वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं) को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000 के वेतनमान पर दिनांक 22.01.2007 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफ आर 22 (I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह/- अपठनीय

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओड़िशा

पुरी-752002, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. डब्ल्यू.एम.47-2 म.ले./म.ले.अ./966/हिंदी-12--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा ने निम्न लिखित मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से एवं उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी संवर्ग (ग्रुप ख-राजपत्रित) वेतन मान रु. 7,500-250-12,000/- पर सहर्ष स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान करती हैं:--

सर्वश्री

1. एस. के. अवदुस शामि	02.01.2007
2. जयदेव मिश्र	02.01.2007
3. देबेन्द्र कुमार माहालि	02.01.2007
4. महेश्वर शतपथी	02.01.2007

ह/- अपठनीय

उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2007

संख्या: ए-19018/639/82-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बिद्युत कुमार दास, इंडस्ट्रियल डिजाइनर लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकत्ता से दिनांक 30.06.2006 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सरिता पुरी
उप निदेशक (प्रशा.)

संख्या: ए-19018/290/77-प्रशा. (राज.) खण्ड-III--राष्ट्रपति
डा. पी.के. चौधरी, अपर औद्योगिक सलाहकार (रसायन), क्षेत्रीय परीक्षण
केन्द्र, कोलकाता को उक्त कार्यालय में रु. 16400-450-20000 के वेतनमान
में लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत स्थानापन्न आधारित औद्योगिक
सलाहकार (रसायन) के पद पर दिनांक 28.09.2006 (अपराह) से अगले
आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

सरिता पुरी
उप निदेशक (प्रशा.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 22 फरवरी 2007

संदर्भ: पीडी/8(8)/2006/भर्ती-4/1895--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों
ग्रेड-सी के पद पर रु. 8000-275-13500 के वेतनमान में 1 सितम्बर,
2006 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1.	श्री शर्मा विष्णु कुमार
2.	श्री संपथ अरुल मोजी वरमन
3.	श्री गुरमीत सिंह
4.	कुमारी श्रृंखला घिल्डियाल
5.	श्री बतुल विस्वनाथ
6.	श्री केसाप्रगड़ वीरा रवि कांथ
7.	श्री वैटला श्रीनिवास
8.	श्री मुकेश कुमार
9.	श्री तरविन्द्र सिंह

पी. वेणुगोपालन
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई 400 001, दिनांक 15 फरवरी 2007

सं. 20/3(4)/2005-सीसीएस/5--राष्ट्रपति, इस विभाग के
श्री पेरीयापेरूमल सौंदरराज, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान
रु. 6500-10500), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र फंसिलिटीज,
कलपाक्कम को दिनांक 29.1.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक
सामान्य सेवा संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, तारापुर में प्रशासन
अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10000-15200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. 16/2(3)/2006-एसयूएस/1253--राष्ट्रपति, इस विभाग के सामान्य
सेवा संगठन, कलपाक्कम में निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक
01.08.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक पदोन्नति होने पर प्रत्येक
के सामने उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त करते हैं

क्र. नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान
सं.			
1	डॉ. जे. अशरफ अली सी (चिकित्सा)	वैज्ञा. अधिकारी/ डी (चिकित्सा)	10000-325-15200
2	डॉ. जी. कुमरेशन सी (चिकित्सा)	वैज्ञा. अधिकारी/ डी (चिकित्सा)	10000-325-15200
3	डॉ. निशा ननोथ पाथ्यन सी (चिकित्सा)	वैज्ञा. अधिकारी/ डी (चिकित्सा)	10000-325-15200

डी. सुरेन्द्रन
विशेष कार्याधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 9 फरवरी 2007

संख्या: आरआरकेट/स्था/373/121--अधिवर्षिता की आयु प्राप्ति के
फलस्वरूप डॉ. आर. वी. नानदेडकर, ने राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी
केन्द्र, इन्दौर में दिनांक जनवरी 31, 2007 अपराह्न को वैज्ञानिक
अधिकारी/एच (वेतनमान रु. 18400-500-22400) के पद का कार्यभार
छोड़ दिया है।

टी. एन. नायर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

संख्या: आरआरकेट/स्था/1623/122--अधिवर्षिता की आयु प्राप्ति के
फलस्वरूप श्री डी. एस. राव, ने राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर
में दिनांक जनवरी 31, 2007 अपराह्न को वैज्ञानिक अधिकारी/एच (वेतनमान
रु. 12000-375-16500) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

टी. एन. नायर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 13 फरवरी 2007

संदर्भ: क्रभनि/07019/भर्ती/755--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार
निदेशालय के निदेशक ने श्री एफ. पी. डायस, वरिष्ठ भंडारी, (वेतनमान
रुपए 5500-175-9000/-) केंद्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय,
मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर रुपए 6500-200-10500/-
के वेतनमान में दिनांक 25.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक
भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, तारापुर में नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 14 फरवरी 2007

संदर्भ: क्रमनि/1007/भर्ती/792--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने मद्रास क्षेत्रिय क्रय और भंडार एकक, चेन्नै के क्रय सहायक श्रीमती एन.सी. वलसा को दि. 04.09.06 (पूर्वाह्न) से 06.10.06 (अपराह्न) तक उसी एकक में रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2007

संख्या ए-32013/4/2006-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय के श्री सुनील कुमार, उप निदेशक (विनियमन एवं सूचना), (तदर्थ आधार पर) को 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 10.02.2007 (पूर्वाह्न) से अगले 06 माह के लिए या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

सुशील टी विलियम्स
उपनिदेशक, प्रशासन

(कार्यालय मुख्य अभियंता)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2007

सं. पत्रांक : 15(70)इ.सी.1/एस. एण्ड पी./न.दि.अ.-2/2007/113-- श्री जगजीवन लाल, अधीक्षक अभियंता (सिविल) - जिनके पास मुख्य अभियंता (न.दि.अ.-3), के.लो.नि.वि., (नई दिल्ली) करंट ड्यूटी चार्ज है, अधिवार्षिका की आयु होने पर 31.01.2007 (अपराह्न) को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

डी. एस. सचदेव
मुख्य अभियंता, न.दि.अ.-2

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाँके बिहरी चिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55/0977/16246--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स

बाँके बिहरी चिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धानुका सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 अक्टूबर 2006

सं. 560(3)/55/64937/29058--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स धानुका सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एन. शर्मा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 14 फरवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./560(3)/6029/7708--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :

क्रम सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	15-001111	मैसर्स हाईवे एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-001112	मैसर्स हाऊसिंग एण्ड होटेलीपरस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-001113	मैसर्स गंजाम रेफ्रैक्टोरिज प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-001142	मैसर्स सिमानी फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-001275	मैसर्स इंडीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट (आई.) लिमिटेड
6.	15-001295	मैसर्स कलिंगा शिप रिपेयरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-001296	मैसर्स कलिंगा इलैक्ट्रो टेकमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-001297	मैसर्स कलिंगा टेक्नो कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
9.	15-001434	मैसर्स विजय एल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड	34.	15-002034	मैसर्स जय नीटिंग एण्ड एसोसिएट्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-001439	मैसर्स उड़ीसा फरजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	35.	15-002037	उत्कल बोरेवैल प्रा० लि०
11.	15-001454	मैसर्स कालाहांडी सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	36.	15-002043	इस्टर्न ग्रेनाइट्स इन्डिया प्रा० लि०
12.	15-001459	मैसर्स ईस्टर्न डाक्टरेक्स प्राईवेट लिमिटेड	37.	15-00 2044	मानकन एण्ड इंजीनियर्स प्रा० लि०
13.	15-001464	मैसर्स एशियन कोइल्स प्राईवेट लिमिटेड	38.	15-002051	कालचेम इन्डिया प्रा० लि०
14.	15-001497	मैसर्स माम्ब्रो वण्टीकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	39.	15-002052	ड्रीम मरचेन्ट्स प्रा० लि०
15.	15-001575	मैसर्स कैपिटल कंस्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	40.	15-002058	आनन्द इस्टेट एण्ड हाउसिंग प्रा० लि०
16.	15-001808	मैसर्स नाथ एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	41.	15-002060	मीलान फाइनांस एण्ड लिजिंग लि०
17.	15-001861	मैसर्स भोज्या इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	42.	15-002063	श्रीक्षंत फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि०
18.	15-001868	मैसर्स सेड प्लेटिशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	43.	15-002065	मग्नम प्लास्ट प्रा० लि०
19.	15-001892	मैसर्स उड़ीसा ग्रैफाइट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	44.	15-002068	उडिसा फास्टर प्रा० लि०
20.	15-001827	मैसर्स उरिटेक प्राईवेट लिमिटेड	45.	15-002069	एसके सिस्टमस प्रा० लि०
21.	15-001659	मैसर्स मदनलाल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	46.	15-002072	डी एण्ड डी चिकन फार्म प्रा० लि०
22.	15-001665	मैसर्स युनाइटेड मेराइन्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	15-002073	यूनिक ट्रामेलस प्रा० लि०
23.	15-001703	मैसर्स धवन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	48.	15-002077	कातायनी केमीकाल एण्ड एलाइज इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
24.	15-001725	मैसर्स निगम इंजीनियरिंग एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड	49.	15-002078	अमर इंजीनियरिंग वर्क्स (उडिसा) प्रा० लि०
25.	15-001738	मैसर्स प्रीमियर पब्लिकन प्राईवेट लिमिटेड	50.	15-002080	लक्ष्मी फाइनांस एण्ड लिजिंग लि०
26.	15-001754	मैसर्स क्रिएटिव कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	15-002082	एच० के० मेकेनीकल प्रा० लि०
27.	15-001773	मैसर्स एम. जस प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	15-002084	हरेकृष्णा रेस्टोरेंट प्रा० लि०
28.	15-001791	मैसर्स मॉर्डन फ्यूल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	15-002085	सांगुइन उद्योग प्रा० लि०
29.	15-002007	मैसर्स चिलीका एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	54.	15-002086	उत्कल अलकोहल प्रा० लि०
30.	15-002008	मैसर्स नवज्योति स्मॉल इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड	55.	15-002092	हीक फास्ट प्रा० लि०
31.	15-002013	मैसर्स विवेक इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	56.	15-002094	रंजन निट इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
32.	15-002023	मैसर्स विश्वनाथ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	15-002095	वालीआ इंजीनीयर्स इण्डिया प्रा० लि०
33.	15-002033	मैसर्स ऋषभ इलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड	58.	15-002102	लोटस आग्रो कम्पलेक्स प्रा० लि०
			59.	15-002107	उत्कल टार्ड क्रुक मैनुफेक्चरर्स प्रा० लि०
			60.	15-002108	डोली स्टील नेट इंजीनियरिंग सिंडिकेट प्रा० लि०
			61.	15-002113	सत्य पोल्ट्री प्रा० लि०

1	2	3
62.	15-002116	मैसर्स सङ्कत श्री कमर्शियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लि०
63.	15-002123	मैसर्स श्रीमा प्लाटिसेन्स प्रा० लि०
64.	15-002125	मैसर्स नव केमिकल्स लि०
65.	15-002129	मैसर्स उडीसा इम्पैक्ट एक्स्ट्रूडर्स प्रा० लि०
66.	15-002130	मैसर्स फेवरेबल हाउसिंग फाइनांस कं. लि०
67.	15-002131	मैसर्स गोदावरी फूड्स प्रा० लि०
68.	15-002132	मैसर्स सूरभा फूड्स प्रा० लि०
69.	15-002134	मैसर्स सुन्दरम पोल्ट्रीज प्रा० लि०
70.	15-002136	मैसर्स टैन केम प्रा० लि०
71.	15-002140	मैसर्स इस्टर्न इण्डिया एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
72.	15-002141	मैसर्स जगन्नाथ सिरामीक्स प्रा० लि०
73.	15-002145	मैसर्स महेन्द्र फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
74.	15-002150	मैसर्स बरुण बोरींग एण्ड पम्प्स इंजीनियरिंग प्रा० लि०
75.	15-002151	मैसर्स न्यू वेसेल्स इण्डिया प्रा० लि०
76.	15-002153	मैसर्स इलाईट केमीकल्स प्रा० लि०
77.	15-002162	मैसर्स सत्य लक्ष्मी पोल्ट्रीज प्रा० लि०
78.	15-002165	मैसर्स विजय लक्ष्मी पोल्ट्रीज प्रा० लि०
79.	15-002168	मैसर्स मोहन्ती ट्रेडर्स प्रा० लि०
80.	15-002169	मैसर्स ग्राफ सेट उडीसा प्रा० लि०
81.	15-002173	मैसर्स कोनार्क इलेक्ट्रो कास्टिंग एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०
82.	15-002175	मैसर्स सेल्टर इण्डिया प्रा० लि०
83.	15-002179	मैसर्स बरत आश्रम सतसंघ फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि०
84.	15-002184	मैसर्स समराय पलास्ट प्रिंट प्रा० लि०
85.	15-002185	मैसर्स समराय ट्युब्स प्रा० लि०
86.	15-002187	मैसर्स न्यू (इण्डिया) इन्वेस्टमेंट लि०
87.	15-002188	मैसर्स कोनार्क बेवरेज प्रा० लि०
88.	15-002189	मैसर्स श्री लक्ष्मी सिनेमा प्रा० लि०

1	2	3
89.	15-002191	मैसर्स फुल्वारी बायोटेक्स प्रा० लि०
90.	15-002193	मैसर्स श्रीराम एक्स्ट्रूकेन प्रा० लि०
91.	15-002194	मैसर्स कलिंग वुड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
92.	15-002198	मैसर्स आन मेराइन प्रा० लि०
93.	15-002199	मैसर्स अशोक कन्स्ट्रक्सन प्रा० लि०
94.	15-002201	मैसर्स इसार फाइनेंसिएल सर्विसेज प्रा० लि०
95.	15-002203	मैसर्स श्रीनीवास केमिकल प्रा० लि०
96.	15-002204	मैसर्स एटलांटिक मेटल एण्ड फेरो एलाइज प्रा० लि०
97.	15-002209	मैसर्स मैनेजमेंट मार्केटिंग एण्ड टेक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि०
98.	15-002210	मैसर्स चान्दीपुर रबर वर्क्स (उडीसा) प्रा० लि०
99.	15-002219	मैसर्स श्री मारुती पोल्ट्रीज प्रा० लि०
100.	15-002220	मैसर्स श्री अम्बीका पोल्ट्रीज प्रा० लि०
101.	15-002223	मैसर्स गायत्री मैराइन प्रा० लि०
102.	15-002224	मैसर्स गिरीस मैराइन प्रा० लि०
103.	15-002225	मैसर्स आम्रपाली एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
104.	15-002232	मैसर्स उमा शंकर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
105.	15-002239	मैसर्स सत्यज्योती ब्रिकरीज प्रा० लि०
106.	15-002242	मैसर्स अरुण बैट्री इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
107.	15-002245	मैसर्स इस्टर्न (इण्डिया) रिनस प्रा० लि०
108.	15-002246	मैसर्स होटेल सुबर्नपुरी प्रा० लि०
109.	15-002248	मैसर्स पुष्पा साफ्ट ड्रिंक्स प्रा० लि०
110.	15-002250	मैसर्स इनकस केमिकल्स प्रा० लि०
111.	15-002254	मैसर्स एसोसिएटेड पेपर प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
112.	15-002260	मैसर्स जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज (आइस) प्रा० लि०
113.	15-002265	मैसर्स इनवेस्ट इण्डिया कम्बाइन्स प्रा० लि०
114.	15-00 2272	मैसर्स जेडी पालीमर्स प्रा० लि०
115.	15-002278	मैसर्स ईस्ट कोस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
116.	15-002281	मैसर्स दिव्याज्योती फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि०

1	2	3
117.	15-002289	मैसर्स नाथन केमिकल्स लि०
118.	15-002291	मैसर्स एन ई एफ सी लीजिंग लि०
119.	15-002292	मैसर्स मीनरल्स एण्ड इंडस्ट्रीयल कन्जुमेबल्स (इण्डिया) प्रा० लि०
120.	15-002293	मैसर्स उड़ीसा वाइन्स एण्ड एलाइड एजेन्सीज प्रा० लि०
121.	15-002299	मैसर्स श्री पोल्ट्री प्रा० लि०
122.	15-002300	मैसर्स एस सी एम एसोसीएट्स प्रा० लि०

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार, उड़ीसा

कंपनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कंपनियों के बारे में।

कटक-753001, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. आरओसी/एस.ई.एस./560(5)/7828--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनियाँ विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कंपनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्र.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
01.	15-02036	मैसर्स चंद्रमा बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
02.	15-04347	मैसर्स गामा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
03.	15-05641	मैसर्स द्वीन सिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
04.	15-05735	मैसर्स श्री दुर्गा कृष्ण स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
05.	15-06020	मैसर्स निओ एण्ड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
06.	15-07272	मैसर्स गुड मानींग इंडिया मल्टी लेवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार, उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कंपनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. आरओसी/560(3)/7833--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-003006	मैसर्स आरोरा ग्रेनाइट प्रा. लि.
02.	15-003064	मैसर्स लींगराज माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.
03.	15-005431	मैसर्स स्वाती कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
04.	15-007347	मैसर्स मोहन मुरली सिक्कूरीटी सर्विसेज प्रा. लि.
05.	15-007620	मैसर्स स्वयं शक्ती मार्केटिंग प्रा. लि.

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार, उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कंपनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 26 फरवरी 2007

सं. आरओसी/560(3)/6029/7859--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-002301	मै. के बाली आर्ट्स प्रा. लि.
02.	15-002302	मै. कनिका प्रॉन कल्चर प्रा. लि.
03.	15-002305	मै. स्वयंवर सर्विसिज प्रा. लि.
04.	15-002306	मै. मोहन पारकर्स प्रा. लि.
05.	15-002315	मै. मयूरी पोल्ट्री प्रा. लि.
06.	15-002318	मै. एच. के. केमीकल्स प्रा. लि.
07.	15-002321	मै. वसुन्धरा होटल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
08.	15-002322	मै. मोदी आइल एण्ड डिस्टीलरीज इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि.
09.	15-002323	मै. दो लाई फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया प्रा. लि.
10.	15-002327	मै. श्री विश्वनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि.
11.	15-002332	मै. ब्लूमिंग डेल फूड्स प्राइवेट लि.
12.	15-002335	मै. उड़ीसा वायर रूपस लि.
13.	15-002338	मै. भविष्य निधि फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) प्रा. लि.
14.	15-002340	मै. संतोष जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
15.	15-002347	मै. स्वेता मेडल्स कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
16.	15-002348	मै. ए. डी. इंजीनियरिंग प्रा. लि.
17.	15-002355	मै. एसोसिएटेड बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.
18.	15-002357	मै. इलैक्ट्रीकल कंस्ट्रक्शन एण्ड कंनसल्टेंसी एजेंसी प्रा. लि.
19.	15-002359	मै. नोर्थ उड़ीसा फिसरीज एण्ड फार्मिंग कं. प्रा. लि.
20.	15-002362	मै. शक्ति जनरल फाइनांस एण्ड इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इण्डिया लि.
21.	15-002367	मै. सूर्याविकास फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (इं.) लि.
22.	15-002369	मै. सूवर्णाधारा पब्लिकेशंस प्रा. लि.
23.	15-002374	मै. मारुति जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
24.	15-002376	मै. उत्कल सुगर एण्ड केमीकल्स लि.
25.	15-002377	मै. भट्टारिका फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
26.	15-002380	मै. पावरमेक्स ट्रांसफॉर्मर्स प्रा. लि.
27.	15-002383	मै. चिराग बल्बस प्रा. लि.
28.	15-002386	मै. एक्शन बिजनेस एण्ड कम्यूनिकेशन डेवलपमेंट प्रा. लि.
29.	15-002387	मै. रोयल मोटर्स प्रा. लि.
30.	15-002388	मै. डोलफिन मेराइन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
31.	15-002390	मै. यूनिक कंस्ट्रक्शन एण्ड मैनुफैक्चरर्स प्रा. लि.
32.	15-002395	मै. इकोस उड़ीसा प्रा. लि.
33.	15-002396	मै. वेरोनिका सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
34.	15-002397	मै. डाटा लाइफ प्रा. लि.
35.	15-002398	मै. जगन्नाथ सिक्वोरिटी सर्विसिज प्रा. लि.
36.	15-002401	मै. कोनार्क पेट्रोकेमीकल्स प्रा. लि.
37.	15-002402	मै. परिजात औफसेट्स प्रेस प्रा. लि.
38.	15-002404	मै. ओनेस्टी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लि.
39.	15-002410	मै. स्वास्ती हेचरीज प्रा. लि.
40.	15-002411	मै. डबोटेक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
41.	15-002413	मै. ट्रेवल एंड ब्यूरो प्रा. लि.
42.	15-002414	मै. यू. पी. एल. होल्डिंग्स प्रा. लि.
43.	15-002418	मै. ओम हाउसिंग फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लि.

1	2	3
44.	15-002420	मै. देशप्रिया सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कं. प्रा. लि.
45.	15-002424	मै. आकाशगंगा इन्टरप्राइसेज प्रा. लि.
46.	15-002425	मै. रियल केमीकल्स प्रा. लि.
47.	15-002426	मै. लिंगाराज फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
48.	15-002432	मै. कृष्णा होमियो फार्मसी प्रा. लि.
49.	15-002433	मै. प्लास्टिक्स वीवन सेक्स इन्वेक्स प्रा. लि.
50.	15-002435	मै. इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स प्रा. लि.
51.	15-002445	मै. मेग्मा कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.
52.	15-002447	मै. प्रनवा फार्मास्यूटिकल्स लि.
53.	15-002448	मै. मयूरवंश हेचरीज प्रा. लि.
54.	15-002450	मै. देवी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
55.	15-002454	मै. मरकरी ओटोमोबाइल्स प्रा. लि.
56.	15-002455	मै. वेस्टर्न (उड़ीसा) पब्लिकेशंस प्रा. लि.
57.	15-002459	मै. कलिंगा इंडस्ट्रीयल सर्विसेस एंड नेटवर्क प्रा. लि.
58.	15-002460	मै. त्रिशूल सी फूड्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
59.	15-002462	मै. क्रस्ट कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
60.	15-002464	मै. कारमेल इन्टरप्राइसिस प्रा. लि.
61.	15-002468	मै. आनंदा परिवार फिल्म प्रोडक्ट्स लि.
62.	15-002473	मै. एस. एस. सिक्कुरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रा. लि.
63.	15-002477	मै. हारागौरी फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
64.	15-002479	मै. अभिवेक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
65.	15-002483	मै. भरुका राईस मिल प्रा. लि.
66.	15-002486	मै. गौरव बोटलिंग प्रा. लि.
67.	15-002487	मै. प्रीसिअस क्रीऐशन प्रा. लि.
68.	15-002488	मै. प्रोलीफिका इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
69.	15-002500	मै. बतरा गैसिज प्रा. लि.
70.	15-002502	मै. आर. बी. इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइसेज प्रा. लि.
71.	15-002503	मै. वेस्पा ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
72.	15-002505	मै. रिलायंस कमर्शियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
73.	15-002514	मै. श्रमशक्ति सेविंग एंड फाईनॉन्स (इण्डिया) लि.
74.	15-002516	मै. स्वदेश फार्माकेम प्रा. लि.
75.	15-002519	मै. रिजैन्सी टैक्सटाइल्स एण्ड वुलन इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.

1	2	3	1	2	3
76.	15-002520	मै. टेक्नोलोजीकल प्रोमोशनल प्रोसेसिंग कारपोरेट इन्डस्ट्रीयल (इण्डिया) लि.	105.	15-002592	मै. मा कामाख्या लीजिंग लि.
77.	15-002521	मै. रिजेंसी ग्रुप ऑफ होटल्स (इण्डिया) लि.	106.	15-002594	मै. लार्ड कृष्णा रॉक प्रा. लि.
78.	15-002523	मै. इंकारपाली चाईना क्ले प्रा. लि.	107.	15-002595	मै. बजरंगबली ऑयल रिफाइनरी प्रा. लि.
79.	15-002526	मै. आदर्श घर लि.	108.	15-002600	मै. ऐसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनॉन्स कं. लि.
80.	15-002531	मै. कलिंगा मशीनरी प्रा. लि.	109.	15-002601	मै. वजीर स्टील इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
81.	15-002535	मै. श्रीमा फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	110.	15-002605	मै. नन्दीघोष केमिकल्स प्रा. लि.
82.	15-002540	मै. संघ मशीन्स (इण्डिया) प्रा. लि.	111.	15-002611	मै. क्रिएटिविजन प्रा. लि.
83.	15-002542	मै. चंदी एलोजन प्रा. लि.	112.	15-002613	मै. जिपटेक इंजीनियर्स प्रा. लि.
84.	15-002545	मै. ए. के. प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	113.	15-002615	मै. अल्फा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
85.	15-002546	मै. आईडियल डेकोरेटिव टाइल्स (इण्डिया) प्रा. लि.	114.	15-002617	मै. किशन-कल्याण फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
86.	15-002548	मै. होटल त्रीदेव रिसोर्ट्स प्रा. लि.	115.	15-002621	मै. री-लायन्स कामर्शियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
87.	15-002549	मै. एफ.एम.एस. उनिशचु लि.	116.	15-002622	मै. मयूर गारमेंट्स प्रा. लि.
88.	15-002554	मै. आईडियल कन्स्ट्रक्शन एंड हाऊस लीजिंग उड़ीसा लि.	117.	15-002626	मै. रोल्सटेक (इण्डिया) प्रा. लि.
89.	15-002556	मै. सरला साल्ट वर्क्स प्रा. लि.	118.	15-002634	मै. अभिनव चित्रशाला प्रा. लि.
90.	15-002557	मै. यूनिरॉथल लेदर एक्सपोर्ट लि.	119.	15-002641	मै. जय जगन्नाथ कैन्सू प्रोसेसिंग प्रा. लि.
91.	15-002559	मै. पी. एण्ड वी. कॉमनीकेशन सर्विसेज प्रा. लि.	120.	15-002644	मै. प्रधान प्लास्टिक वर्क्स प्रा. लि.
92.	15-002566	मै. निवेदन होमली सेविंग्स एण्ड इनवेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	121.	15-002646	मै. पैसेफिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
93.	15-002568	मै. श्री राम मोटर्स प्रा. लि.	122.	15-002647	मै. पोलियन फाइनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) प्रा. लि.
94.	15-002569	मै. जनार्धन मेटल इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	123.	15-002648	मै. मोडर्न नेचुरल हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
95.	15-002571	मै. उत्कल कलर प्रोसेसिंग प्रा. लि.	124.	15-002650	मै. स्पेक्ट्रा ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
96.	15-002572	मै. ज्योत्सना पोल्ट्रीज़ प्रा. लि.	125.	15-002651	मै. नीलाचल रबर रोल्स प्रा. लि.
97.	15-002576	मै. पेरेनियल फाइनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.	126.	15-002653	मै. औरोकेम इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
98.	15-002578	मै. गन्नोन इंडस्ट्रीज़ लि.	127.	15-002655	मै. राउरकेला रोड लाइन्स प्रा. लि.
99.	15-002583	मै. नीलाचक्रा फाइनॉन्स एण्ड इनवेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	128.	15-002656	मै. ओसाका पाइप्स एण्ड सीट्स लि.
100.	15-002584	मै. लोकानाथ केमिकल्स प्रा. लि.	129.	15-002657	मै. राधामोहन फिल्मस प्रा. लि.
101.	15-002586	मै. मीडिया वर्ल्ड एडवर्टिंग प्रा. लि.	130.	15-002658	मै. आनन्दा परिवार हाउसिंग फाइनॉन्स कं. लि.
102.	15-002587	मै. कम्बाईड इकॉनॉमिक एण्ड ट्रेडिंग कं. लि.	131.	15-002664	मै. मंगल दीप फाइनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
103.	15-002588	मै. जय जगन्नाथ केबल्स प्रा. लि.	132.	15-002666	मै. लक्ष्मी लिथोग्राफिक्स प्रा. लि.
104.	15-002591	मै. उत्कल कामर्शियल इकॉनॉमिक डेवलपमेंट कं. (इण्डिया) लि.	133.	15-002672	मै. उड़ीसा जिक एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
			134.	15-002678	मै. परीजा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
135. 15-002683	मै. ईस्ट इण्डिया जनरल एण्ड कामर्शियल फाइनेंस कं. लि.	
136. 15-002684	मै. चासी मशीनरी प्रा. लि.	
137. 15-002686	मै. विलेज डेवलपमेंट होम फाईनॉन्स इन्वेस्टमेंट कं. लि.	
138. 15-002688	मै. नीगम हाउसिंग फाईनॉन्स लि.	
139. 15-002691	मै. पोल्ट्री हेल्थ केयर प्रा. लि.	
140. 15-002699	मै. गौरव हाउसिंग फाईनॉन्स एण्ड ट्रेडिंग (इण्डिया) लि.	
141. 15-002700	मै. सागर प्रॉन कल्चर एण्ड प्रोसेसिंग प्रा. लि.	
142. 15-002904	मै. उत्कल प्रदीप फाइनेन्स लि.	
143. 15.002906	मै. सिंह एण्ड मोहपात्रा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	
144. 15-002908	मै. अल्फा लीजिंग एण्ड प्रीमियर हाउसिंग अपार्टमेंट्स (इण्डिया) लि.	
145. 15-002912	मै. रेजिडेंशियल सिक्वोरिटी सर्विसेज प्रा. लि.	
146. 15-002915	मै. सुप्रिया स्टील्स एण्ड वायर्स प्रा. लि.	
147. 15-002919	मै. ईस्टर्न रॉक्स (इण्डिया) प्रा. लि.	
148. 15-002922	मै. जे. बी. ब्ल्यूचिप फाईनॉन्स सर्विसेज प्रा. लि.	
149. 15-002928	मै. विष्णु फाईनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि.	
150. 15-002931	मै. धन विकास फाईनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	
151. 15-002933	मै. मिलन कोटेज इण्डिया लि.	
152. 15-002935	मै. वी. एस. जी. हरबल्स (इण्डिया) प्रा. लि.	
153. 15-002937	मै. साबित्री हाउसिंग काम्पलैक्स प्रा. लि.	
154. 15-002946	मै. ईशान लेदर्स प्रा. लि.	
155. 15-002947	मै. कम्प्यूटरनिक एजुकेशन प्रा. लि.	
156. 15-002950	मै. शर्मा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	
157. 15-002955	मै. तुलसी फाईनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	
158. 15-002961	मै. न्यू इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड फाईनॉन्स डेवलपमेंट लि.	
159. 15-002972	मै. गोल्ड पान मसाला प्रा. लि.	
160. 15-002976	मै. सलासन स्पाईसिज़ प्रा. लि.	

1	2	3
161. 15-002985	मै. डेफोडिल्स कामर्शियल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनॉन्स (उड़ीसा) लि.	
162. 15-002987	मै. वरगबी हास्पिटल एण्ड मेडीकल कालेज प्रा. लि.	
163. 15-002988	मै. गीतांजली सिक्वोरिटी सर्विसेज प्रा. लि.	
164. 15-002991	मै. लाइफ लाइन कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	
165. 15-002995	मै. एवन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	
166. 15-002996	मै. रेयर इन्टरप्राइजेस प्रा. लि.	
167. 15-002999	मै. इन्टीग्रेटेड कन्सलटेन्सी प्रा. लि.	

बी. मोहन्ती
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोसटल कम्प्यूटर होस प्राईवेट लिमिटेड के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं.560(5)एसइएस/2003/2043/2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोसटल कम्प्यूटर होस प्राईवेट लिमिटेड (09-4232) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कंपनी का नाम काट दिया गया है।

एस.एम. अमीरुल मिल्लत,
कम्पनी पंजीयक, केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स लिंक इण्डिया सेक्यूरिटिज लिमिटेड के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 26 फरवरी 2007

सं.560(3)एमसीए/आरओसी-ईकेएम/एसइसी 560/2007/00130/2143/2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लिंक इण्डिया सेक्यूरिटिज लिमिटेड (09-11427) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कंपनी का नाम काट दिया गया है।

एस.एम. अमीरुल मिल्लत,
कम्पनी पंजीयक, केरल

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st March 2007

No. F. 6/2007-SCA(I).—Mrs. Krishna Malhotra, Officiating Assistant Registrar, has retired from the service of the Registry of Supreme Court of India with effect from the afternoon of February 28, 2007 on her attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR
Addl. Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 11th January 2007

No. A-19014/18/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt.) dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint Shri Sudhakar Raj C. (D.O.B. 02-03-1960) (CSL No. 5637), a Regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Power to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 22nd December, 2006 (Forenoon) until further orders :

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/21/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/8/2006-CS. I (Desk) (Pt.) dated 12th December, 2006, the President is pleased to appoint Smt. Manjula Saxena (D.O.B. 10.05.1964) (CSL No. 5636), a Regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Information & Broadcasting to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 26th December, 2006 (Forenoon) until further orders :

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 19th February 2007

No. DPPERS.I/2007/505/3/94/94-PERS.I.—Shri Dayaram Singh Yadav relinquished the charge of the post of Additional Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.1.2007 on superannuation.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

No. DPPERS.I/2007/506/3/16/2004-PERS.I.—Shri Debal Jyoti Nag relinquished the charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.1.2007 on superannuation.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

New Delhi-110003, the 26th February 2007

No. DPPERS.I/2007/0042/3/40/92.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Batta, Public Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 09.02.2007 and until further orders.

SURINDER MOHAN
Admn. Officer (Pers.)

No. DPPERS. I/2007/0043/3/24/2000.—Shri Jugal Kumar relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2007.

SURINDER MOHAN
Admn. Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 28th February 2007

No. 2/18/07-Admn./49705.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Paritosh Sarkar, Assistants in the Commission as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad-hoc basis with effect from 14.02.2007 for a period of three months or till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy.
For Central Vigilance Commissioner

No. 2/2/07-Admn./49706.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri M. A. Khan, Section Officer in the Commission as Under Secretary in the scale

of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis with effect from 14.02.2007, for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

MANGELAL

Dy. Secy.

For Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110003, the 21st February 2007

No. 16/3/2000-Admn-(FS)—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar, Assistant Government Examiner of Questioned Documents as Deputy Government Examiner of Questioned Documents in the office of Government Examiner of Questioned Documents, Kolkata under the Directorate of Forensic Science on promotion with effect from 17.1.2007 (AN) in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-.

Dr. M. S. RAO

Dir. (FS)

New Delhi-110003, the 13th February 2007

No. O-II-6381/2007-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice for resignation from Government service, Shri B. M. K. Sarma, Asstt. Comdt. (IRLA) No. 6381) of 66 Bn CRPF, was relieved from his post on 30.11.2006 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 30.11.2006 (AN).

RANJIT SINGH

Addl. DIG (Pers-I)

No. O-II.3722/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Parminder Pal Singh as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 22.1.2007 till further order. He is posted to 185 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH

Addl. DIG (Pers-I)

The 14th February 2007

No. O-II.3723/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Manish Rai as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 5.2.2007 till further order. He is posted to 137 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH

Addl. DIG (Pers-I)

The 19th February 2007

No. A.VI. 1/2007-Pers. I (AC)—The President is pleased

to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

Sl. No.	Roll No.	Name of Officer	Date of Joining
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	054832	Pavan Dev Gaur	27.12.2006 AN
2.	049396	Prabhat Kumar Singh	27.12.2006 FN
3.	116225	Bharat Bhushan Sharma	26.12.2006 FN
4.	040688	Sanjay Kumar Bamola	27.12.2006 FN
5.	041589	Rajesh Sharma	22.01.2007 AN
6.	027451	Brajesh Kumar Pandey	21.01.2007 FN
7.	047847	Vipul Kumar Mishra	27.12.2006 AN
8.	030205	Santosh Singh Chauhan	30.12.2006 FN
9.	034054	Manil Nawadia	27.12.2006 FN
10.	083105	Santosh Kumar	27.12.2006 AN
11.	098260	Pankaj Kumar	27.12.2006 AN
12.	013383	Parmanand	27.12.2006 AN
13.	073190	Dharmendra Singh Yadav	27.12.2006 AN
14.	079100	Yuvraj Kumar	27.12.2006 AN
15.	011812	Nirmal Gope	27.12.2006 FN
16.	037914	Kuldeep Kumar	26.12.2006 AN
17.	010399	Kameshwar Sahu	31.12.2006 AN
18.	041248	Kumar Omprakash Singh	26.12.2006 FN
19.	000953	Mohammed Raji	26.12.2006 FN
20.	080496	Hemant Kumar	27.12.2006 FN
21.	008916	Lengminthang Kipgen	30.12.2006 AN
22.	096491	Yashwant Singh Rajput	27.12.2006 AN
23.	073223	Pankaj Kumar Mishra	26.12.2006 FN
24.	047368	Yogendra Anandrao Dakhole	27.12.2006 FN
25.	103366	Navin Kumar	26.12.2006 FN
26.	047086	Kaushal Sadhan Giri	28.12.2006 AN
27.	061917	Jayram Prasad	27.12.2006 FN
28.	104298	Manish Pandey	27.12.2006 FN
29.	103321	Amit Kumar	27.12.2006 FN
30.	054850	Ngashepam Manoranjan Singh	26.12.2006 AN
31.	014533	Anurag Tiwari	27.12.2006 FN
32.	109604	Shankar Kumar	26.12.2006 AN
33.	028411	Avigyan Kumar	27.12.2006 FN

1	2	3	4
	(S/Shri)		
34.	096930	Sinku Sharan Singh	26.12.2006 FN
35.	016181	Vishvas Kumar Singh	27.12.2006 AN
36.	060795	Prem Kant Choubey	27.12.2006 AN
37.	001253	Vinay Kumar Singh	27.12.2006 AN
38.	025764	Devendra Saxena	28.12.2006 FN
39.	002035	Neyaz Ahmad	26.12.2006 AN
40.	000897	Vivek Kumar	26.12.2006 AN
41.	067171	Pavitra Chakravarty	26.12.2006 FN
42.	054438	Rajeev Ranjan Kumar Singh	27.12.2006 AN
43.	013856	Pushkar Bhardwaj	29.12.2006 FN
44.	010505	Mahendra Hegde	27.12.2006 AN
45.	090229	Ranjeet Kumar	27.12.2006 AN
46.	001465	Rajneesh Kumar	27.12.2006 FN
47.	048013	Beerandra Kumar	27.12.2006 AN
48.	020019	Mrityunjay Kumar	26.12.2006 FN
49.	017347	Ajeet Kumar	28.12.2006 AN
50.	000461	Alok Kumar	31.12.2006 FN
51.	073412	Alok Kumar Anal	27.12.2006 AN
52.	016817	Rakesh Kumar Mishra	27.12.2006 AN
53.	037821	Kumar Anshu Mali	26.12.2006 FN
54.	090978	Vikrant Sharma	27.12.2006 FN
55.	074744	Hari Shankar Maurya	02.01.2007 AN
56.	019915	Raajdweep Gupta	26.12.2006 AN
57.	072895	Anupam	27.12.2006 FN
58.	031816	Sanjeev Kumar	26.12.2006 FN
59.	050852	Shyam Lal	27.12.2006 FN
60.	011271	Akhilesh Kumar Singh	27.12.2006 AN
61.	030084	Purshotam Kumar	27.12.2006 FN
62.	007255	Sachin Kumar Gupta	27.12.2006 FN
63.	055458	Chitesh Kumar	26.12.2006 FN
64.	073503	Rajiv Ranjan	27.12.2006 FN
65.	057856	Yamini Kunwar Bhati	26.12.2006 AN
66.	002319	Vipin Kumar Dhariwal	27.12.2006 AN
67.	105616	Alakh Shukla	27.12.2006 FN
68.	020822	Dinesh Kumar Singdeo	26.12.2006 FN
69.	081041	Mahesh Kumar	26.12.2006 FN
70.	051422	Yengkhom Rakesh Singh	27.12.2006 FN
71.	014123	Sunil Kumar	27.12.2006 FN

1	2	3	4
	(S/Shri)		
72.	048238	Sharad Kumar	27.12.2006 FN
73.	104899	Anand Prasad Gothwal	27.12.2006 FN
74.	104957	Dinesh	27.12.2006 AN
75.	067372	Gopal Singh Bunkar	27.12.2006 AN
76.	067368	Maharabam Prabo Singh	26.12.2006 AN
77.	106060	Himanshu Kumar Prasad	27.12.2006 FN
78.	022791	Karmveer Singh Yadav	27.12.2006 AN
79.	020888	Pappu Kumar Rajak	27.12.2006 AN
80.	080828	Anant Kumar Toppo	26.12.2006 FN
81.	012200	DoukhanlunSimte	27.12.2006 AN
82.	015891	Ratneshwar Kumar	27.12.2006 AN
83.	054604	Vivek Kumar Singh	27.12.2006 AN
84.	018913	Amit Prakash	26.12.2006 AN
85.	011100	Binay Kumar	26.12.2006 FN
86.	051754	Mange Ram	04.01.2007 AN
87.	104734	Pramod Kumar	27.12.2006 FN
88.	105759	Anil Kumar Ram	27.12.2006 FN
89.	009194	Vijay Kumar	26.12.2006 FN
90.	050966	Mukesh Kumar Sevaria	26.12.2006 FN
91.	096040	Bajarang Lal Meena	26.12.2006 AN
92.	076868	Prakash Chandra Badolia	26.12.2006 AN
93.	097555	Prem Kumar Ravi	27.12.2006 AN
94.	073758	Pawan Kumar	27.12.2006 FN
95.	112375	Gaurav	27.12.2006 FN
96.	025132	Paras Mani Chander	26.12.2006 AN
97.	102928	Prakash Chandra Badal	27.12.2006 AN
98.	009794	Amar Jeet Singh	27.12.2006 FN
99.	109444	Ranjan Roshan Tirkey	25.12.2006 AN
100.	022656	Sunil Kumar Lakra	25.12.2006 AN
101.	084936	Raj Kumar Raj	27.12.2006 AN
102.	074607	Hari Singh	26.12.2006 AN
103.	082718	Ajay Kumar Sah	26.12.2006 FN
104.	013884	Kamlesh Kumar	26.12.2006 FN
105.	067036	Saurabh Rajput	27.12.2006 FN
106.	077416	Deepak Tiwari	29.12.2006 AN
107.	048162	Harish Chandra	26.12.2006 AN
108.	060858	Shinde Nitin Shivdas	27.12.2006 FN
109.	026652	Vikrant Verma	26.12.2006 AN

1	2	3	4
	(S/Shri)		
110.	045685	Abhishek Sharma	27.12.2006 FN
111.	097074	Bharat Bhushan Pratap Singh	27.12.2006 FN
112.	072941	Vikrant Singh	27.12.2006 AN
113.	029005	Vijay Shankar Singh	27.12.2006 FN
114.	021947	Deepak Kumar	27.12.2006 AN
115.	030291	Kunal Kishore	27.12.2006 AN
116.	093973	Anil Kumar Gurjar	27.12.2006 AN
117.	012357	Pritam Singh	27.12.2006 AN
118.	049364	Sudhanshu Kumar	26.12.2006 AN
119.	047866	Satwant Singh Yadav	25.12.2006 AN
120.	079726	Satya Narayan Tanwer	25.12.2006 AN
121.	072657	Vishal Baibhav	27.12.2006 AN
122.	001897	Manish Kumar	26.12.2006 AN
123.	056607	Vivek Singh	21.01.2007 AN
124.	003642	Sanjay Pathak	15.01.2007 AN
125.	081621	Rohit Kumar	27.12.2006 FN
126.	097408	Vikas Kumar Rai	27.12.2006 FN
127.	075678	Rakesh Kumar Chaurasia	26.12.2006 FN
128.	028049	Kumar Neeraj	26.12.2006 FN
129.	049391	Thakur Diwakar Singh	27.12.2006 AN
130.	064781	Manish Kumar	27.12.2006 FN
131.	039971	Jagjeet Singh	27.12.2006 AN
132.	105733	Vinod Kumar	27.12.2006 FN
133.	036647	Neer Singh Meena	29.12.2006 AN
134.	101942	Rajesh Kumar	27.12.2006 FN
135.	061777	Sandeep Kumar	26.12.2006 AN
136.	027422	Pawan Kumar	26.12.2006 FN
137.	073992	Rakesh Kumar	26.12.2006 FN
138.	023989	Mukesh Kumar Chaudhary	26.12.2006 AN
139.	020125	Ramesh Singh	26.12.2006 FN
140.	047519	Ningreingam Leisan	27.12.2006 AN
141.	102916	Pawan Kumar Bhojak	26.12.2006 AN
142.	096054	Rajan Singh	27.12.2006 AN
143.	059226	Raju Kumar Singh	26.12.2006 AN
144.	095798	Ratnesh Kumar Singh	27.12.2006 AN
145.	103157	Praveen Tripathi	27.12.2006 FN
146.	018095	Vinod Sawant	27.12.2006 AN
147.	095833	Amritesh Kumar	27.12.2006 AN

1	2	3	4
	(S/Shri)		
148.	057076	Nishant Vaishnav	26.12.2006 FN
149.	036058	Suresh Oraon	27.12.2006 AN
150.	054328	Ravindra Singh Tomar	27.12.2006 FN
151.	087206	Shiv Charan Meena	27.12.2006 FN
152.	071860	Sarvesh Kumar Sinha	27.12.2006 FN
153.	092868	Pancham Lal	26.12.2006 AN
154.	009285	Umesh Kumar Sah	26.12.2006 AN
155.	051615	Jitendra Kumar	28.12.2006 FN
156.	042492	Zia-Ul-Haque	26.12.2006 FN
157.	087694	Deepak Kumar Tiwari	03.01.2007 AN
158.	100261	Vinod Sinha	28.12.2006 AN
159.	022443	Dharam Das Chourasiya	26.12.2006 FN
160.	090996	Sarwar Hussain	26.12.2006 FN
161.	003621	Ami Chand Yadav	26.12.2006 AN
162.	015701	Vikas Kumar Singh	27.12.2006 FN
163.	014100	Sukhendra Singh Somawanshi	27.12.2006 AN
164.	098424	Swatantra Kumar Shukla	27.12.2006 FN
165.	099849	Siddharth Singh	27.12.2006 FN
166.	017537	Ashwani Kumar Mishra	27.12.2006 AN
167.	002434	Ravindra Singh	27.12.2006 AN
168.	059448	Amit Sharma	27.12.2006 FN
169.	017242	Manish Raman	28.12.2006 AN
170.	113418	Jeetender Kumar	26.12.2006 AN
171.	070872	Anil Kumar Yadav	26.12.2006 AN
172.	093570	Vivek Saraswat	22.01.2007 AN
173.	052939	Karun Kumar Ojha	22.01.2007 FN
174.	005600	Rajendra Kumawat	15.01.2007 AN
175.	081076	Kumar Rakesh Ranjan	24.01.2007 AN
176.	012129	Ramesh Kumar Swami	15.01.2007 AN
177.	073066	Pramendra Narayan	12.01.2007 AN
178.	072437	Vinay Kumar	22.01.2007 AN
179.	080460	Sapan Suman	18.01.2007 AN
180.	102729	Avinash Yadav	12.01.2007 AN
181.	100189	Sanjay Kumar	22.01.2007 AN
182.	048496	Zafirul Islam	25.01.2007 AN
183.	096318	Ram Kewal	27.12.2006 AN
184.	014715	Shailesh Kumar	27.12.2006 FN
185.	060811	Jinesh Joyce	27.12.2006 FN

1	2	3	4
	(S/Shri)		
186.	095889	Rajendrakumar Kerba Patil	26.12.2006 FN
187.	062336	Chavan Sudhir Arjun	27.12.2006 AN
188.	041534	V. Kamalesh	27.12.2006 FN
189.	040758	Pai Singh	27.12.2006 FN
190.	090500	Rohit Kachhawa	27.12.2006 FN

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarapur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates against their names.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

The 21st February 2007

No. O.II.3727/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Gopalji Gupta as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the afternoon of 9.2.2007 till further order. He is posted to Group Centre, CRPF, Siliguri (WB).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O.II.3726/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Hage Gunto as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the afternoon of 9.2.2007 till further order. He is posted to 170 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O.II.3725/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Rakesh Kumar (IRLA-7016) as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 7.2.2007 till further order. He is posted to 145 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O.II.3724/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Kadam Prakash Madhukar (IRLA-7015) as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 5.2.2007 till further order. He is posted to 45 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. D.I.8/2004 Pers.-I—Consequent on his selection for appointment to the post of Deputy Commandant in Madhya

Pradesh Police, Government of Madhya Pradesh, on deputation basis for a period of three years, services of Shri Manoj Kumar Gupta, Deputy Commandant, 152 Bn, CRPF (IRLA-4015), are placed at the disposal of MP Police, Govt. of Madhya Pradesh from 03.05.2006 (FN)

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

The 22nd February 2007

No. O.II.3728/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Prabhakar Tripathi as Medical Officer in Central Reserve Police force in temporary capacity from the forenoon of 7.2.2007 till further order. He is posted to 168 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 22nd February 2007

No. A-12012/4/EAD/2006-Admn. II.—Shri A. K. Sutradhar, Senior Supervising Officer of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director in the pay scale of Rs. 7,500—12,000/- with effect from 27th December, 2006 until further orders.

KAMALESH DEKA
Dir. Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 19th February 2007

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers. I/21—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Commandant in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Commandant on regular basis
	(S/Shri)		
1.	V. K. Awasthi	PTPS Panipat	21.12.2006
2.	S. S. Chaudhary	NISA Hyderabad	02.01.2007

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-38015(4)/VS/2007/Pers-I/20—The President is pleased to accept the technical resignation of Dr. V. Sundar,

Dy. Commandant, CISF Unit, BSP Bhilai, with effect from 06th February 2007 (AN) on appointment in Group-I post in Andhra Pradesh State Civil Service.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 21st February 2007

No. E-16015/NDMA/06/Pers.II/467—Consequent upon appointment as Sr. PPS to Shri K. M. Singh, Member National Disaster Management Authority (NDMA) on deputation basis for a period of three years, Shri R. K. Sinha, Asstt. Inspector General, CISF has relinquished the charge of the post of AIG/Works, CISF Hqrs., New Delhi w.e.f. 05.04.2006 (AN) and assumed the charge of Sr. PPS to Member, NDMA on 05.04.2006 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

MINISTRY OF FINANCE

BANK NOTE PRESS

(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED)

Dewas, the 17th February 2007

No. BNP/C/44/98-I—The period of ad hoc promotion granted to Shri K. L. Gorya vide Notification dated 27.10.2006 is extended further from 07.02.2007 to 05.05.2007 on the same terms and conditions.

D. V. GONDNALE
Gen. Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), BIHAR

Patna-800001, the 22nd February 2007

No. L. A. Admn.-I-Promo-Sr. AO-32-79 of 2006-07—The Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna has been pleased to promote Sri Mahesh Choudhary, Audit Officer of Local Audit Wing to officiate as Senior Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.01.2007 (FN).

AMITABH PRASAD
Examiner of Local Accounts
Bihar, Patna

No. L. A. Admn.-I-Promo-AO/43/80 of 2006-07—The Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna has been pleased to promote Sri Sanjeeva Kumar Verma Assistant Audit Officer of Local Audit Wing to officiate as Audit

Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2007 (FN).

AMITABH PRASAD
Examiner of Local Accounts
Bihar, Patna

No. L. A. Admn.-I-Promo-AAO-33-810/2006-07—The Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna has been pleased to promote the following Section Officers of Local Audit Wing as Assistant-Audit officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 11.01.2007 (FN).

1. Sh. Rakesh Kumar II
2. Sh. Ranjan Kumar
3. Sh. Amrendra Verma

AMITABH PRASAD
Examiner of Local Accounts
Bihar, Patna

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 12th February 2007

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. VI/438—Shri Jyotirmoy Bhattacharya, Sr. Audit Officer, of the O/o the Pr. A G. (Audit) WB retired from service on superannuation on 31.01.2007 (AN).

B. K. MUKHERJEE
(DAG) (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 2nd February 2007

No. Admn. I/1366-II/2006-07/341—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Sibendranath Sanyal, Accounts Officer and Shri Alok Kumar Chakraborty, Accounts Officer to the higher functional grade of Senior Accounts Officers in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.01.2007 (FN) or the date of their taking over charges whichever is later.

Shri Sanyal and Shri Chakraborty on their promotion as Senior Accounts Officers may exercise their option under F. R. 22 I (a)(i) within one month from the date of issue of this office order for fixation of pay.

[Authority : A. G.'s order dated 07.12.2006]

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

No. Admn. I/1255-IV/2006-07/371—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 09.01.2007, the following Section Officer of this office

who is now on deputation as Section Officer (Audit) in the Office of the Pr. Director of audit (Central), Kolkata has been granted proforma promotion as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date on which his junior as shown below shall take over charge as Assistant Accounts Officer in this office :—

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next junior
Sh. Saibal Sanyal	Sh. Biswajit Pal

All the conditions precedent to the grant of proforma promotion under "Next Below Rules" Stand fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Shri Sanyal on deputation is outside the ordinary line of service.

On promotion, his pay will be fixed under F. R. 22 I(A)(i) for which he may exercise his option within one month from the date of promotion.

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

The 7th February 2007

No. Admn. I/1255-IV/2006-07/225—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 22.09.2006, the following Section Officer who is now on deputation to the office of the Principal Accountant General (Audit), West Bengal has been granted proforma promotion as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date on which his junior as shown below shall takes over charge as Assistant Accounts Officer in this office :—

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next junior
Sh. Tapan Kr. Manna	Sh. Prasanta Kr. Paul

All the conditions precedent to the grant of proforma promotion under "Next Below Rules" Stand fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Shri Manna, now on deputation is outside the ordinary line of service.

On promotion, his pay will be fixed under F. R. 22 I(A)(i) for which he may exercise his option within one month from the date of promotion.

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

No. Admn. I/1255-IV/2006-07/224—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 22.09.2006, the following Section Officers are promoted as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of

Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 22.09.2006 (FN) or the date of taking over charge as Asstt. Accounts Officer whichever is later :—

(S/Shri)

1. Nandadulal Sadhukhan
2. Prasanta Kumar Paul
3. Dilip Kumar Sengupta
4. Indrajit Sarkar
5. Emmanuel Ekka
6. Pulak Kumar Saha

On promotion, their pay will be fixed under F. R. 22I(a)(i) for which they may exercise option within one month from the date(s) of their promotion.

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ORISSA

Bhubaneswar, the 21st February 2007

No. Admn. I-Con-4AA(O)/1998—The Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to allow the following Section Officer (Accounts) to officiate in the cadre of Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date noted against him.

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Prasanna Kumar Behera | 2.1.2007 FN |
|--------------------------|-------------|

The promotion to the cadre of Assistant Accounts Officer is subject to the final decision of Supreme Court High Court/Central Administrative Tribunal without pre-judice to the claims of his seniors.

S. C. SAHOO
Senior Accounts Officer, (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 22nd February 2007

No. O.E./E&C/EIVP/157—The following Officials of IA&AD retired from Service.

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. S. Sukumary Nair	Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31.01.2007 AN (Superannuation)
2.	Smt. Sali Mathew	Asst. Accounts Officer, Main Office Trivandrum	08.01.2007 FN (Voluntary retirement)

P. BHASKARAN
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KARNATAKA

Bangalore, the 22nd January 2007

No. ES I/A8/AO/2006-2007/239—The Accountant General (A&E) is pleased to promote Sri R.G. Prasad, Assistant Accounts Officer (Unique I.D. No. I 2090066) (On deputation as Finance Officer, with the Karnataka Legislative Assembly Secretariat, Vidhana Soudha, Bangalore) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000 with effect from 22.01.2007 FN or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by him for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ORISSA

Puri-752002, the 6th February 2007

No. WM-47-2-DA/DAO-966—The Accountant General (A&E) Orissa has been pleased to allow the following Divisional Accounts Officers Grade-I to officiate in the post of Sr. Divisional Accounts Officer (Grade- B Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date noted against each without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Sh. S. K. Abdus Sami | 02.01.2007 FN |
| 2. Sh. Jayadev Mishra | 02.01.2007 FN |
| 3. Sh. Debendra Kumar Mahali | 02.01.2007 FN |
| 4. Sh. Maheswar Satapathy | 02.01.2007 FN |

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Gen.
Works Accounts

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 26th February 2007

No. A-19018/639/82-Admn. (G).—On attaining the age of superannuation, Shri Bidyut Kumar Das, Industrial Designer, Small Industries Service Institute, Kolkata under Small Industry Development Organization retired from Government service on the afternoon of 30.06.2006.

SARITA PURI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/290/77-Admn. (G) Vol. III.—The President is pleased to appoint Dr. P. K. Choudhury, Additional Industrial Adviser (Chemical), Regional Testing Centre, Kolkata as Industrial Adviser (Chemical) on officiating basis under Small Industry Development Organization in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in the same office with effect from the afternoon of 28.09.2006 until further orders.

SARITA PURI
Dy. Dir. (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 22nd February 2007

No. PD/8 (8)/2006-R-IV/1895—The President is pleased to appoint the undermentioned individuals as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre with effect from the forenoon of September 1, 2006 in a temporary capacity until further orders.

Sl. Name of the Officer
No.

1. Shri Sharma Vishnu Kumar
2. Shri Sampath Arul Mozhy Varman
3. Shri Gurmeet Singh
4. Kum. Shrinkhla Ghildiyal
5. Shri Bathula Vishwanadh
6. Shri Kesapragada Veera Ravi Kanth
7. Shri Vietla Srinivas
8. Shri Mukesh Kumar
9. Shri Tarvinder Singh

P. VENUGOPALAN
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 15th February 2007

No. 20/3(4)/2005-CCS/5—The President is pleased to appoint Shri Periapuram Soundraraj, Assistant Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-) Bhabha Atomic Research Centre Facilities, Kalpakkam of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the General Services Organisation, Bhabha Atomic Research Centre, Tarapur with effect from 29.01.2007 (FN) until further orders.

SOBHA DEVIN.
Under Secy.

Mumbai-400001, the 22nd February 2007

No. 16/2(3)/2006-SUS/1253—The President is pleased to appoint the following officers in General Services Organisation Kalpakkam of this Department, on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 01.08.2006 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade on promotion	Scale of pay
1.	Dr. J. Ashraf Ali	SO/C (Medical)	SO/D (Medical)	Rs. 10,000-325-15,200/-
2.	Dr. Nisha Nanth Pathyan	SO/C (Medical)	SO/D (Medical)	Rs. 10,000-325-15,200/-
3.	Dr. G. Kumareshan	SO/C (Medical)	SO/D (Medical)	Rs. 10,000-325-15,200/-

D. SURENDRAN
Officer on Special Duty

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 9th February 2007

No. RRCAT/Estt./373/121—Consequent on attaining the age of superannuation, Dr. R. V. Nandedkar has relinquished the charge of the post of Scientific Officer/H (Scale of pay Rs. 18,400-500-22,400/-) in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore w.e.f. afternoon of January 31, 2007.

T. N. NAIR
Chief Admin. Officer

The 9th February 2007

No. RRCAT/Estt./1623/122—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri D. S. Rao has relinquished the charge of the post of Chief Administrative Officer (Scale of pay Rs. 12,000-375-16,500/-) in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore w.e.f. afternoon of January 31, 2007.

T. N. NAIR
Chief Admin. Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 13th February 2007

Ref. DPS/07019/Rectt./755—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri E. P. Dias, Senior Storekeeper (Scale of pay Rs. 5,500-175-9,000/-), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai as Assistant Stores Officer in

the scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-, in Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Tarapur, with effect from 25.01.2007 (FN) until further orders.

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

The 14th February 2007

Ref. DPS/10007/Rectt./792—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. N. C. Valsa, Purchase Assistant, MRPU, Chennai as Assistant Purchase Officer on ad hoc basis in the same unit, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 04.09.2006 (FN) to 06.10.2006 (AN).

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

OFFICER OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 20th February 2007

No. A-32013/4/2006-E.II.—The President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri Sunil Kumar, Deputy Director (Regulations & Information) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad hoc basis for a further period of 6 months, with effect from the forenoon of 10th February, 2007 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

SUSHIL T. WILLIAMS
Dy. Dir. of Administration

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER

CENTRAL PUBLIC WORK DEPARTMENT

New Delhi, the 30th January 2007

No. 15(170)/ECI/S&P/NDZ-II/2007/113—Shri Jag Jiwan Lal, Superintending Engineer (Civil)-Current Duty Charge of the post of the Chief Engineer (NDZ-III-CPWD New Delhi) shall retire from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st January 2007 (AN).

D. S. SACHDEV
Chief Engineer, NDZ-II

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Bankey Bihari Chit & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

Notice u/s 560(3)/55/9717/16246—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. Bankey Bihari Chit & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanaka Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 19th October 2006

Notice u/s 560(3)/55/64937/29058—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhanaka Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. N. SHARMA
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753001, the 14th February 2007

No. ROC/SEC. 560(3)/7708—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
01.	15-001111	M/s. Highway Aluminium Pvt. Ltd.
02.	15-001112	M/s. Housing & Hoteriers Pvt. Ltd.
03.	15-001113	M/s. Ganjam Refractories Pvt. Ltd.
04.	15-001142	M/s. Shibani Films Pvt. Ltd.
05.	15-001275	M/s. Intigrated Investment (I) Ltd.
06.	15-001295	M/s. Kalinga Ship Repairing Co. Pvt. Ltd.
07.	15-001296	M/s. Kalinga Electro Technics Pvt. Ltd.
08.	15-001297	M/s. Kalinga Techno Consultants Pvt. Ltd.
09.	15-001434	M/s. Bijaya Aluminium Pvt. Ltd.
10.	15-001439	M/s. Orissa Forging & Engineering Co. Pvt. Ltd.

1	2	3
11.	15-001454	M/s. Kalahandi Cement Pvt. Ltd.
12.	15-001459	M/s. Eastern Dytex Pvt. Ltd.
13.	15-001464	M/s. Asian Blades Ltd.
14.	15-001497	M/s. Mambro Optical Industries Pvt. Ltd.
15.	15-001575	M/s. Capital Constructors Pvt. Ltd.
16.	15-001808	M/s. Nath Aluminium Industries Pvt. Ltd.
17.	15-001861	M/s. Vijaya Industries Pvt. Ltd.
18.	15-001868	M/s. Sed Plantations (India) Pvt. Ltd.
19.	15-001892	M/s. Orissa Graphite & Industries Pvt. Ltd.
20.	15-001627	M/s. Oritech Pvt. Ltd.
21.	15-001659	M/s. Madanlal Trading Co. Pvt. Ltd.
22.	15-001665	M/s. United Marines Pvt. Ltd.
23.	15-001703	M/s. Dhawan Steels Pvt. Ltd.
24.	15-001725	M/s. Nigam Engineering & Co. Pvt. Ltd.
25.	15-001738	M/s. Premier Polycon Pvt. Ltd.
26.	15-001754	M/s. Creative Consultants Pvt. Ltd.
27.	15-001773	M/s. M. J. Plastics Pvt. Ltd.
28.	15-001791	M/s. Modern Fuel Products Pvt. Ltd.
29.	15-002007	M/s. Chilka Export Pvt. Ltd.
30.	15-002008	M/s. Navajyothi Small Investment (India) Ltd.
31.	15-002013	M/s. Vivek Electrical Engineering Pvt. Ltd.
32.	15-002023	M/s. Biswanath Exports Pvt. Ltd.
33.	15-002033	M/s. Rushabh Electronics Pvt. Ltd.
34.	15-002034	M/s. Jay Knitting and Hosiers Works Pvt. Ltd.
35.	15-002037	M/s. Utkal Borewell Pvt. Ltd.
36.	15-002043	M/s. Eastern Granites India Pvt. Ltd.
37.	15-002044	M/s. Mancon and Engineers Pvt. Ltd.
38.	15-002051	M/s. Kalchem India Pvt. Ltd.
39.	15-002052	M/s. Dream Merchants Pvt. Ltd.
40.	15-002058	M/s. Ananda Estate and Housing Pvt. Ltd.
41.	15-002060	M/s. Milan Finance and Leasing Ltd.
42.	15-002063	M/s. Sriketra Finance and Investment Ltd.

1	2	3	1	2	3
43.	15-002065	M/s. Magnum Plast Pvt. Ltd.	75.	15-002151	M/s. New Vessels India Pvt. Ltd.
44.	15-002068	M/s. Orissa Fastners Pvt. Ltd.	76.	15-002153	M/s. Elite Chemicals Pvt. Ltd.
45.	15-002069	M/s. Esskay Systems Pvt. Ltd.	77.	15-002152	M/s. Satyalakshmi Poultries Pvt. Ltd.
46.	15-002072	M/s. D and D Chicken Farm Pvt. Ltd.	78.	15-002165	M/s. Vijaya Lakshmi Poultries Pvt. Ltd.
47.	15-002073	M/s. Unique Travels Pvt. Ltd.	79.	15-002168	M/s. Mohanty Traders Pvt. Ltd.
48.	15-002077	M/s. Kattayani Chemical and Allied Industries Pvt. Ltd.	80.	15-002169	M/s. Graph Set Orissa Pvt. Ltd.
49.	15-002078	M/s. Amar Engineering Works (Orissa) Pvt. Ltd.	81.	15-002173	M/s. Konark Electro Casting and Engineering Works Pvt. Ltd.
50.	15-002080	M/s. Laxmi Finance and Leasing Ltd.	82.	15-002175	M/s. Shelter (India) Pvt. Ltd.
51.	15-002082	M/s. H. K. Mechanical Pvt. Ltd.	83.	15-002179	M/s. Varat Ashram Satasangh Finance and Investment Company Ltd.
52.	15-002084	M/s. Harekrishna Restaurant Pvt. Ltd.	84.	15-002184	M/s. Shamarai Plast Print Pvt. Ltd.
53.	15-002085	M/s. Sanguine Udyog Pvt. Ltd.	85.	15-002185	M/s. Shamarai Tubes Pvt. Ltd.
54.	15-002086	M/s. Utkal Alcohol Pvt. Ltd.	86.	15-002187	M/s. New (India) Investment Ltd.
55.	15-002092	M/s. HIQ Plast Pvt. Ltd.	87.	15-002188	M/s. Konark Beverages Pvt. Ltd.
56.	15-002094	M/s. Ranjan Neo Industries Pvt. Ltd.	88.	15-002189	M/s. Shree Laxmi Cinema Pvt. Ltd.
57.	15-002095	M/s. Walia Engineers India Pvt. Ltd.	89.	15-002191	M/s. Phulbari Biotics Pvt. Ltd.
58.	15-002102	M/s. Lotus Agro Complex Pvt. Ltd.	90.	15-002193	M/s. Sreeram Extraction Pvt. Ltd.
59.	15-002107	M/s. Utkal Hard Coke Manufacturer Pvt. Ltd.	91.	15-002194	M/s. Kalinga Wood Industries Pvt. Ltd.
60.	15-002108	M/s. Dolly Steel Net Engineering Syndicate Pvt. Ltd.	92.	15-002198	M/s. Ann Marine Pvt. Ltd.
61.	15-002113	M/s. Satya Poultries Pvt. Ltd.	93.	15-002199	M/s. Ashok Construction Pvt. Ltd.
62.	15-002116	M/s. Saikat Shree Commercial Credit and Investment India Ltd.	94.	15-002201	M/s. Essar Financial Services Pvt. Ltd.
63.	15-002123	M/s. Srma Plantations Pvt. Ltd.	95.	15-002203	M/s. Srinivas Chemical Pvt. Ltd.
64.	15-002125	M/s. Nav Chemicals Ltd.	96.	15-002204	M/s. Atlantic Metal & Ferro Alloys Pvt. Ltd.
65.	15-002129	M/s. Orissa Impact Extruders Pvt. Ltd.	97.	15-002209	M/s. Management Marketing & Technical Services Pvt. Ltd.
66.	15-002130	M/s. Favourable Housing Finance Company Ltd.	98.	15-002210	M/s. Chandipur Rubber Works (Orissa) Pvt. Ltd.
67.	15-002131	M/s. Godavari Foods Pvt. Ltd.	99.	15-002219	M/s. Shree Maruti Poultries Pvt. Ltd.
68.	15-002132	M/s. Suprabha Foods Pvt. Ltd.	100.	15-002220	M/s. Shree Ambika Poultries Pvt. Ltd.
69.	15-002134	M/s. Sundaram Poultries Pvt. Ltd.	101.	15-002223	M/s. Gayatri Marine Pvt. Ltd.
70.	15-002136	M/s. Tan Chem Pvt. Ltd.	102.	15-002224	M/s. Girish Marine Pvt. Ltd.
71.	15-002140	M/s. Eastern India Agro Industries Pvt. Ltd.	103.	15-002225	M/s. Amrapali Exports Pvt. Ltd.
72.	15-002141	M/s. Jagannath Ceramics Pvt. Ltd.	104.	15-002232	M/s. Uma Shankar Ice and Cold Storage Pvt. Ltd.
73.	15-002145	M/s. Mahendra Finance and Investment Pvt. Ltd.	105.	15-002239	M/s. Satyajyoti Brickries Pvt. Ltd.
74.	15-002150	M/s. Baruna Boring and Pumps Engineering Pvt. Ltd.	106.	15-002242	M/s. Arun Battery Industries Pvt. Ltd.
			107.	15-002245	M/s. Eastern (India) Rins Pvt. Ltd.
			108.	15-002246	M/s. Hotel Subarnapuri Pvt. Ltd.
			109.	15-002248	M/s. Pusfha soft Drinks Pvt. Ltd.
			110.	15-002250	M/s. Incos Chemicals Pvt. Ltd.
			111.	15-002254	M/s. Associated Paper Products Pvt. Ltd.

1	2	3
112.	15-002260	M/s. Jagannath Cold Storage (Ice) Pvt. Ltd.
113.	15-002265	M/s. Invest India Combines Pvt. Ltd.
114.	15-002272	M/s. Jay Dee Polymers Pvt. Ltd.
115.	15-002278	M/s. East Coast Agro Products Pvt. Ltd.
116.	15-002281	M/s. Divyajyoti Finance and Investment Ltd.
117.	15-002289	M/s. Nathan Chemicals Ltd.
118.	15-002291	M/s. NEFC Leasing Ltd.
119.	15-002292	M/s. Minerals and Industrial Consumables (India) Pvt. Ltd.
120.	15-002293	M/s. Orissa Wines and Allied Agencies Pvt. Ltd.
121.	15-002299	M/s. Shree Poultry Pvt. Ltd.
122.	15-002300	M/s. S.C.M. Associates Pvt. Ltd.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies :—

Cuttack-753001, the 22nd February 2007

No. ROC/Sec. 560 (5)/7828—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1.	15-002036	M/s. Chandrama Builders Developers Pvt. Ltd.
2.	15-004347	M/s. Gamma Estates Pvt. Ltd.
3.	15-005641	M/s. Twin City Engineers Pvt. Ltd.
4.	15-005735	M/s. Sri Durga Cloth Stores Pvt. Ltd.
5.	15-006020	M/s. Neo Agro Industries (India) Ltd.
6.	15-007272	M/s. Good Morning India Multilevel Marketing Pvt. Ltd.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies :—

Cuttack-753001, the 22nd February 2007

No. ROC/Sec. 560 (3)/7833—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of the Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1.	15-003006	M/s. Aurora Granites Pvt. Ltd.
2.	15-003064	M/s. Lingaraj Mines & Minerals Pvt. Ltd.
3.	15-005431	M/s. Swati Computers Pvt. Ltd.
4.	15-007347	M/s. Mohan Murali Security Services Pvt. Ltd.
5.	15-007620	M/s. Swayam Shakti Marketing Pvt. Ltd.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies :—

Cuttack-753001, the 26th February 2007

No. ROC/Sec. 560 (3)/7859—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1.	15-002301	M/s. Kaibalya RTS Pvt. Ltd.
2.	15-002302	M/s. Kanika Prawn Culture Pvt. Ltd.
3.	15-002305	M/s. Swayambar Services Pvt. Ltd.
4.	15-002306	M/s. Mohan Parkers Pvt. Ltd.
5.	15-002315	M/s. Mayuri Poultry Pvt. Ltd.
6.	15-002318	M/s. H. K. Chemicals Pvt. Ltd.
7.	15-002321	M/s. Vasundhra Hotels and Industries Pvt. Ltd.
8.	15-002322	M/s. Modi Oil and Distilleries Industries (India) Pvt. Ltd.
9.	15-002323	M/s. Dolai Finance and Investment Co. of India Pvt. Ltd.
10.	15-002327	M/s. Shree Biswaanath Ayurved Bhawan Pvt. Ltd.
11.	15-002332	M/s. Bloomingdale Foods Pvt. Ltd.

1	2	3
12.	15-002335	M/s. Orissa Wire Roops Ltd.
13.	15-002338	M/s. Bhavisyanidhi Finance & Investment (India) Ltd.
14.	15-002340	M/s. Santosh Jute Products Pvt. Ltd.
15.	15-002347	M/s. Sweta Metal Consultants Pvt. Ltd.
16.	15-002348	M/s. A. D. Engineering Pvt. Ltd.
17.	15-002355	M/s. Associateds Builders and Traders Pvt. Ltd.
18.	15-002357	M/s. Electrical Construction & Consultancy Agency Pvt. Ltd.
19.	15-002359	M/s. North Orissa Fisheries & Farming Co. Pvt. Ltd.
20.	15-002362	M/s. Shakti General Finance and Industries Investment India Ltd.
21.	15-002367	M/s. Surya Bikash Finance and Investment (India) Ltd.
22.	15-002369	M/s. Suvarnadhara Publications Pvt. Ltd.
23.	15-002374	M/s. Maruti Jute Products Pvt. Ltd.
24.	15-002376	M/s. Utkal Sugar & Chemicals Ltd.
25.	15-002377	M/s. Bhattarika Finance & Investment Ltd.
26.	15-002380	M/s. Powermax Transformers Pvt. Ltd.
27.	15-002383	M/s. Chirag Bulbs Pvt. Ltd.
28.	15-002386	M/s. Action Business and Communication Development Pvt. Ltd.
29.	15-002387	M/s. Royal Motors Pvt. Ltd.
30.	15-002388	M/s. Dolphin Marine Products Pvt. Ltd.
31.	15-002390	M/s. Unique Construction & Manufactures Pvt. Ltd.
32.	15-002395	M/s. Ecosss Orissa Pvt. Ltd.
33.	15-002396	M/s. Veronica Savings & Investment Co. Pvt. Ltd.
34.	15-002397	M/s. Date Life Pvt. Ltd.
35.	15-002398	M/s. Jagannath Security Services Pvt. Ltd.
36.	15-002401	M/s. Konark Pertochemicals Pvt. Ltd.
37.	15-002402	M/s. Parijat Offsets Press Pvt. Ltd.
38.	15-002404	M/s. Honesty Savings and Investment India Ltd.
39.	15-002410	M/s. Swasti Hatcheries Pvt. Ltd.
40.	15-002411	M/s. Dvotech Concrete Construction Pvt. Ltd.
41.	15-002413	M/s. Travel Aid Bureau Pvt. Ltd.

1	2	3
42.	15-002414	M/s. U.P.L. Holdings Pvt. Ltd.
43.	15-002418	M/s. Om Housing Finance & Investment India Ltd.
44.	15-002420	M/s. Deshpriya Savings & Credit Company Pvt. Ltd.
45.	15-002424	M/s. Aakash Ganga Enterprises Pvt. Ltd.
46.	15-002425	M/s. Ryal Chemicals Pvt. Ltd.
47.	15-002426	M/s. Lingaraj Food Products Pvt. Ltd.
48.	15-002432	M/s. Krishna Homoeo Pharmacy Pvt. Ltd.
49.	15-002433	M/s. Plastics Woven Sacks Impex Pvt. Ltd.
50.	15-002435	M/s. Industrial Engineers Pvt. Ltd.
51.	15-002445	M/s. Magma Construction Co. Pvt. Ltd.
52.	15-002447	M/s. Pranava Pharmaceuticals Ltd.
53.	15-002448	M/s. Mayurhanj Hatcheries Pvt. Ltd.
54.	15-002450	M/s. Devi Food Products Pvt. Ltd.
55.	15-002454	M/s. Mercury Automobiles Pvt. Ltd.
56.	15-002455	M/s. Western (Orissa) Publications Pvt. Ltd.
57.	15-002459	M/s. Kalinga Industrial Services and Networks Pvt. Ltd.
58.	15-002460	M/s. Trisul Sea Foods and Exports Pvt. Ltd.
59.	15-002462	M/s. Crust Construction Pvt. Ltd.
60.	15-002464	M/s. Carmel Enterprises Pvt. Ltd.
61.	15-002468	M/s. Ananda Paribar Film Products Pvt. Ltd.
62.	15-002473	M/s. S. S. Security & Protection Pvt. Ltd.
63.	15-002477	M/s. Haragouri Finance & Investment Pvt. Ltd.
64.	15-002479	M/s. Abhishek Savings & Investment Pvt. Ltd.
65.	15-002483	M/s. Bharuka Rice Mill Pvt. Ltd.
66.	15-002486	M/s. Caurav Bottling Pvt. Ltd.
67.	15-002487	M/s. Precious Creations Pvt. Ltd.
68.	15-002488	M/s. Prolific Electronics Pvt. Ltd.
69.	15-002500	M/s. Batra Gases Pvt. Ltd.
70.	15-002502	M/s. R. B. Industrial Enterprises Pvt. Ltd.
71.	15-002503	M/s. Vespa Granites Pvt. Ltd.
72.	15-002505	M/s. Reliance Commercial Credit & Investment Company Pvt. Ltd.

1	2	3
73.	15-002514	M/s. Sramasakti Savings and Finance India Ltd.
74.	15-002516	M/s. Swadesh Pharmachem Pvt. Ltd.
75.	15-002519	M/s. Regency Textiles and Woolen Industries India Ltd.
76.	15-002520	M/s. Technological Promotional Processing Corporate Industrial India Ltd.
77.	15-002521	M/s. Regency Group of Hotels India Ltd.
78.	15-002523	M/s. Jhankarpali Chaina Clay Pvt. Ltd.
79.	15-002526	M/s. Adarsh Ghar Ltd.
80.	15-002531	M/s. Kalinga Machinery Pvt. Ltd.
81.	15-002535	M/s. Srimaa Food Products Pvt. Ltd.
82.	15-002540	M/s. Sangh Machines India Pvt. Ltd.
83.	15-002542	M/s. Chandi Alloys Pvt. Ltd.
84.	15-002545	M/s. A. K. Products Pvt. Ltd.
85.	15-002546	M/s. Ideal Decorative Tiles (India) Pvt. Ltd.
86.	15-002548	M/s. Hotel Tridev Resorts Pvt. Ltd.
87.	15-002549	M/s. F.M.S. Unischu Ltd.
88.	15-002554	M/s. Ideal Construction and House Leasing (Orissa) Ltd.
89.	15-002556	M/s. Sarala Salt Works Pvt. Ltd.
90.	15-002557	M/s. Uniroyal Leather Exports Ltd.
91.	15-002559	M/s. P & V Communication Services Pvt. Ltd.
92.	15-002566	M/s. Nivedan Homely Savings & Investment (India) Ltd.
93.	15-002568	M/s. Sriram Motors Pvt. Ltd.
94.	15-002569	M/s. Janardhan Metal Industries Pvt. Ltd.
95.	15-002571	M/s. Utkal Colour Processing Pvt. Ltd.
96.	15-002572	M/s. Jyotsna Poultries Pvt. Ltd.
97.	15-002576	M/s. Perennial Finance & Investment Co. Pvt. Ltd.
98.	15-002578	M/s. Gannon Industries Ltd.
99.	15-002583	M/s. Neelachakra Finance & Investment (India) Ltd.
100.	15-002584	M/s. Lokanath Chemical Pvt. Ltd.
101.	15-002586	M/s. Media World Adverting Pvt. Ltd.
102.	15-002587	M/s. Combined Economic & Trading Company Ltd.

1	2	3
103.	15-002588	M/s. Jay Jagannath Cables Pvt. Ltd.
104.	15-002591	M/s. Utkal Commercial Economic Development Company (India) Ltd.
105.	15-002592	M/s. Maa Kamakhya Leasing Pvt. Ltd.
106.	15-002594	M/s. Lord Krishna Rock Pvt. Ltd.
107.	15-002595	M/s. Bajrangbali Oil Refinery Pvt. Ltd.
108.	15-002600	M/s. Associated Investment and Finance Co. Ltd.
109.	15-002601	M/s. Wazir Steel Industries Pvt. Ltd.
110.	15-002605	M/s. Nandighosh Chemicals Pvt. Ltd.
111.	15-002611	M/s. Creativision Pvt. Ltd.
112.	15-002613	M/s. Gyptech Engineers Pvt. Ltd.
113.	15-002615	M/s. Alfa Constuction & Investment Ltd.
114.	15-002617	M/s. Kishan-Kalayan Finance & Investment Pvt. Ltd.
115.	15-002621	M/s. Re-lions Commercial Credit & Investment Company Pvt. Ltd.
116.	15-002622	M/s. Mayur Garments Pvt. Ltd.
117.	15-002626	M/s. Rollstech (India) Pvt. Ltd.
118.	15-002634	M/s. Abhinab Chitrasala Pvt. Ltd.
119.	15-002641	M/s. Jay Jagannath Cashew Processing Pvt. Ltd.
120.	15-002644	M/s. Pradhan Plastic Works Pvt. Ltd.
121.	15-002646	M/s. Pacific Constructions Pvt. Ltd.
122.	15-002647	M/s. Polion Finance and Investment (India) Pvt. Ltd.
123.	15-002648	M/s. Modern Natural Health Management Research Centre Pvt. Ltd.
124.	15-002650	M/s. Spectra Granites Pvt. Ltd.
125.	15-002651	M/s. Neelachal Rubber Rolls Pvt. Ltd.
126.	15-002653	M/s. Aurochem Industries Pvt. Ltd.
127.	15-002655	M/s. Rourkela Road Lines Pvt. Ltd.
128.	15-002656	M/s. Osaka Pipes & Sheets Ltd.
129.	15-002657	M/s. Radha Mohan Films Pvt. Ltd.
130.	15-002658	M/s. Ananda Paribar Housing Finance Company Ltd.
131.	15-002664	M/s. Mangal Deep Finance & Investment (India) Ltd.
132.	15-002666	M/s. Lakshmi Lithographics Pvt. Ltd.
133.	15-002672	M/s. Orissa Zinc and Chemical Industries Pvt. Ltd.

1	2	3
134.	15-002678	M/s. Parija Exports Pvt. Ltd.
135.	15-002683	M/s. East India General & Commercial Finance Company Ltd.
136.	15-002684	M/s. Chasi Machinery Pvt. Ltd.
137.	15-002686	M/s. Village Development Home finance Investment Co. Ltd.
138.	15-002688	M/s. Neegam Housing Finance Ltd.
139.	15-002691	M/s. Poultry Health Care Pvt. Ltd.
140.	15-002699	M/s. Gaurav Housing Finance and Trading (India) Ltd.
141.	15-002700	M/s. Sagar Prawn Culture and Processing Pvt. Ltd.
142.	15-002904	M/s. Utkal Pradeep Finance Ltd.
143.	15-002906	M/s. Singh & Mohapatra Exports Ltd.
144.	15-002908	M/s. Alpha Leasing & Premier Housing Apartments (I) Ltd.
145.	15-002912	M/s. Residencial Security Service Pvt. Ltd.
146.	15-002915	M/s. Supriya Steels and Wires Pvt. Ltd.
147.	15-002919	M/s. Eastern Rocks (India) Pvt. Ltd.
148.	15-002922	M/s. J. B. Blue Chip Finance Services Pvt. Ltd.
149.	15-002928	M/s. Vishnu Finance and Investment Company Ltd.
150.	15-002931	M/s. Dhana Bikash Finance & Investment (India) Ltd.
151.	15-002933	M/s. Millan Cottage India Ltd.
152.	15-002935	M/s. VSG Herbals (India) Pvt. Ltd.
153.	15-002937	M/s. Sabitri Housing Complex Pvt. Ltd.
154.	15-002946	M/s. Eeshan Leathers Pvt. Ltd.
155.	15-002947	M/s. Computernik Education Pvt. Ltd.
156.	15-002950	M/s. Sharma Exports Pvt. Ltd.
157.	15-002955	M/s. Tulasi Fiannce & Investment (I) Ltd.
158.	15-002961	M/s. New India Infrastructure & Finance Development Ltd.
159.	15-002972	M/s. Gold Pan Masala Pvt. Ltd.
160.	15-002976	M/s. Salasan Spices Pvt. Ltd.

1	2	3
161.	15-002985	M/s. Daffodils Commercial Investment & Finance (Orissa) Ltd.
162.	15-002987	M/s. Vargabi Hospital and Medical College Pvt. Ltd.
163.	15-002988	M/s. Geetanjali security Services Pvt. Ltd.
164.	15-002991	M/s. Life Line Computers Pvt. Ltd.
165.	15-002995	M/s. Avon Construction Pvt. Ltd.
166.	15-002996	M/s. Rare Enterprises Pvt. Ltd.
167.	15-002999	M/s. Integrated Consultancy Pvt. Ltd.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :—

Kochi-682021, the 22nd February 2007

No. 560(5)/Ses. 2003/2043/2007—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Company has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
01.	4232	M/s. Coastal Computer House Pvt. Ltd.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Link India Securites Limited

Ernakulam-682021, the 22nd February 2007

Notice u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/Sec. 560/2007/00130/2143—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s Link India Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala